

Personal Account Opening Form/

पर्सनल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म

(For Residents and Non-Residents/केवल निवासियों और गैर-निवासियों के लिए)

Residents/ निवासि Non-Residents/ गैर-निवासि New Account Opening/ नया खाता खोलना Name addition/deletion/ नाम जोड़ना/हटाना
 Residential Status Conversion form/ आवासीय स्थिति रूपांतरण फॉर्म

Account Opening Information and Choice of accounts/खाता खोलने के लिए आवश्यक सूचना एव खातों के विकल्प

Please check the relevant option/कृपया सही पर्याय पर निशान लगाये।

A. Account Type/क. खाते का प्रकार Sole account/एकल खाता Joint account Number of accountholders/संयुक्त खाता खाताधारकों की संख्या
 2/2 3/3

Minor/अव्यस्क Yes/ हाँ No/ नहीं

B. Types of Customer/ख. ग्राहक का प्रकार: NRE Savings/ एनआरई बचत NRO Savings/ एनआरओ बचत NRE Current/ एनआरई चालू
 NRO Current/ एनआरओ चालू

C. Types of accounts:/ ग. खातों के प्रकार:

Savings Account – It is the most common operating account mainly for individuals. A savings account helps people to put through day-to-day banking transactions, besides earning interest on the balances maintained in the account. बचत खाता – मुख्यतः व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लिया जानेवाला यह अत्याधिक सामान्य खाता है। खाते में रखी बचत जमाओं पर ब्याज पाने के अलावा दैनिक संव्यवहार करने के लिए यह खाता लोगों को मदद करता है।

Current account – These accounts are maintained mainly for business purposes. No interest is paid on the balance in the current account. चालू खाता – यह खाते मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं। चालू खाते में जमा शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। सावधि जमा (एफडी) के लिए एफडी बुकिंग फार्म पूर्ण करें।

EEFC Account – Maintained in foreign currency, EEFC is a facility provided to the foreign exchange earners and can be held only in the form of a current account and no interest is payable. ईईएफसी खाता – विदेशी मुद्रा में प्रबंधित, ईईएफसी एक सुविधा है जिसे विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जनकर्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है और इसे केवल चालू खाते के स्वरूप में ही रखा जा सकता है और इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

D. I have an existing HSBC relationship with HSBC India / ग. एचएसबीसी इंडिया के साथ मेरे मौजूदा एचएसबीसी संबंध हैं

Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम खाताधारी Yes/ हाँ No/ नहीं If yes (provide details) Account No./ यदि हाँ (ब्यौरे दें)
खाता सं.

Joint Accountholder 1/ संयुक्त खाताधारी 1 Yes/ हाँ No/ नहीं If yes (provide details) Account No./ यदि हाँ (ब्यौरे दें)
खाता सं.

Joint Accountholder 2/ संयुक्त खाताधारी 2 Yes/ हाँ No/ नहीं If yes (provide details) Account No./ यदि हाँ (ब्यौरे दें)
खाता सं.

E. Do you hold an account/product with HSBC in any other countries/ घ. क्या किसी अन्य देश में एचएसबीसी में आपका कोई खाता/उत्पाद है

Yes/ हाँ No/ नहीं

Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम खाताधारी Yes/ हाँ No/ नहीं

If yes Country/Territory 1/ यदि हाँ, देश/क्षेत्र 1 _____ Country/Territory 2/ देश/क्षेत्र 2 _____

Joint Accountholder 1/ संयुक्त खाताधारी 1 Yes/ हाँ No/ नहीं

If yes Country/Territory 1/ यदि हाँ, देश/क्षेत्र 1 _____ Country/Territory 2/ देश/क्षेत्र 2 _____

Joint Accountholder 2/ संयुक्त खाताधारी 2 Yes/ हाँ No/ नहीं

If yes Country/Territory 1/ यदि हाँ, देश/क्षेत्र 1 _____ Country/Territory 2/ देश/क्षेत्र 2 _____

The 'Code of Bank's Commitment to Customers' was released by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) in July 2006. The Bank is a member of the BCSBI. To obtain your copy of the code, please visit www.hsbc.co.in or one of our branches./ बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआई) द्वारा जुलाई 2006 में बैंक की ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धता की संहिता जारी किया गया था बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है। संहिता की आपकी प्रति प्राप्त करने के लिए वेबसाइट www.hsbc.co.in पर या हमारी किसी भी शाखा पर संपर्क करें।

F. Purpose of Account Opening/ च. खाता खोलने का उद्देश्य

Household Expenses/ घरेलू खर्च Regular Mandated Debit/ नियमित अधिदेशित नामे Regular Mandated Credit/ नियमित अधिदेशित जमा Savings/ बचत
 Children's Education or School Fees/ बच्चे की शिक्षा या स्कूल फीस

Please open an account at your branch as per the details below./ कृपया नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपनी शाखा में खाता खोलें :

City/ शहर Branch/ शाखा

Personal Details/ वैयक्तिक विवरण (Sole/First accountholder/Minor)/ (एकल/प्रथम-खाताधारक/अव्यस्क)

Residential status/ निवासिय स्थिति Resident/ निवासि Non-Resident/ गैर-निवासि Foreign national/ विदेशी नागरिक Person of Indian Origin/ भारतीय मूल के व्यक्ति

Salutation/ संबोधन Mr./ श्री Mrs./ श्रीमति Ms./ सुश्री Mst./ मास्टर Title/ शीर्षक Dr./ डॉ. Prof./ प्रो. Not Applicable/ लागू नहीं

Any other/ कोई अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें



(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Full Name/ पूरा नाम (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Are you known by any other names:/ क्या आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं: Yes/ हाँ No/ नहीं

Former/Other name/ पूर्व/अन्य नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Maiden name/ प्रथम नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Name/ नाम (Same as per ID proof)/ (वही जो पहचान पत्र प्रमाण में है) (provide if different from Full name)/ यदि भिन्न हो तो पूरा नाम दें

How would you like to be addressed in our communication?/ किस तरह आप हमारे पत्राचार में सम्बोधित किया जाना पसन्द करोगे?

Name as desired on the Card/ जो नाम कार्ड पर चाहिए

Date of birth/ जन्म तिथि Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender / तीसरा लिंग

Place/City of Birth/ जन्म का स्थान/शहर _____ Country of birth/ जन्म देश _____

Nationality/Citizenship of/ राष्ट्रियता/नागरिकता _____

Multiple Nationality/ बहुराष्ट्रियता Yes/ हाँ No/ नहीं Nationality/Citizenship 2/ राष्ट्रियता/ नागरिकता 2

Nationality/Citizenship 3/ राष्ट्रियता/नागरिकता 3

KYC number/ केवाईसी नंबर (Number would be given by Central KYC registry) (If available)/ (नंबर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा) (यदि उपलब्ध हो)

Marital status/ वैवाहिक स्थिति: Married/ विवाहित Single/ एकल Other/ अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Father's name/ पिता का नाम

Spouse's name/ पति/पत्नी का नाम (If available)/ (यदि उपलब्ध हो)

Mother's name/ माता का नाम

PAN details:/ पैन के ब्यौरे: It is mandatory to provide a self-attested copy of the PAN card (or Form 60, as applicable). / पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (या फार्म 60, जो भी लागू हो) देना अनिवार्य है.

For Minor accounts, Form 60 of minor is not required if guardian's PAN is available, provided minor's income does not exceed amount chargeable to tax. / अवयस्क खातों के लिए, यदि संरक्षक का पैन उपलब्ध है तो अवयस्क का फॉर्म 60 आवश्यक नहीं है, बशर्ते अवयस्क की आय कर के लिए प्रभाय राशि से अधिक न हो.

Permanent Account Number (PAN)/ परमानेंट अकाउन्ट नंबर (पैन) PAN card number/ मेरा पैन नंबर Form 60 attached/ फॉर्म 60 संलग्न NA/ लागू नहीं

Officially Valid Documents - Proof of Identity/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - पहचान का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी PAN card/ पैन कार्ड Permanent Driving licence/ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स Others/ अन्य _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

For Aadhaar please mention only last 4 digits. Please blank out first 8 digits in Aadhaar copy./ आधार के लिए कृपया केवल अंतिम 4 अंकों का उल्लेख करें. कृपया आधार कॉपी में पहले 8 अंक पूरी तरह से मिटा या ढक दें.

Officially Valid Documents - Proof of Address/आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

PAN card/ पैन कार्ड Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी Driving licence/ ड्राइविंग लाइसेन्स Others#/अन्य# _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

If "Yes", please state Aadhaar number/ यदि "हाँ", तो आधार नंबर उल्लिखित करें

*For information on additional documents acceptable as identity/address proof please get in touch with the nearest HSBC branch in India or your Relationship Manager or call the HSBC India Contact Centre./ *पहचान/पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य अतिरिक्त दस्तावेजों के बारे में जानकारी के लिए कृपया भारत में नजदीकी एचएसबीसी शाखा या अपने संबंध प्रबंधक से संपर्क करें अथवा एचएसबीसी इंडिया संपर्क केंद्र को कॉल करें.

Documents accepted as a Proof of Address should mention the address details. In case Proof of Identity does not contain Date of Birth, an additional proof for the same is required. It is mandatory to provide a self-attested copy of Passport for Non-Resident customer./ पते के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों में पते के पूरे ब्यौरे उल्लिखित हों. यदि पहचान प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो उसका अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक होगा. अनिवासी ग्राहक के लिए पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करना अनिवार्य है.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Permanent Address/ स्थायी पता: Same as current residential address/ वही जो वर्तमान आवासीय पता है Yes/ हाँ No/ नहीं

Permanent Address/ स्थायी पता: Type of Address/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय एवं कारोबार
 Business/ कारोबार Registered office/ पंजीकृत कार्यालय

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Previous Address/ पूर्व पता (if resident at current address for less than 3 years/ (यदि वर्तमान पते पर 3 वर्ष से कम से निवास हो)

Years at previous address/ पूर्व पते पर वर्ष

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Other/alternate Residential Address/ अन्य/वैकल्पिक आवासीय पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/ नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Current Address in the jurisdiction details where applicant is resident for Tax Purposes / अधिकार-क्षेत्र में वर्तमान पता जहां आवेदक कर प्रयोजनों के लिए निवासी है.

Type of Address/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय एवं कारोबार Business/ कारोबार Registered office/ पंजीकृत कार्यालय

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/ नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration /विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) संबंधी घोषणा

Are you a US Person/ क्या आप अमेरिकी व्यक्ति हैं Yes/ हाँ No/ नहीं

You will also be required to complete a Form W9/W8 with explanation, if any of the information in the account opening form indicates any US indicia.

The Form W9/W8 will be available on an external website -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> यदि खाता खोलने के फॉर्म में कोई सूचना कोई अमेरिकी संबंध सूचित करता है तो आपको स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 भरना होगा. यह फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 एक बाह्य वेबसाइट -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> पर उपलब्ध होगी.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Employment Details/ रोजगार के ब्यौरे

Please check the boxes and fill the requested information under./ कृपया खानों को चेक करें और नीचे अपेक्षित जानकारी भरें.

Please select Employment status/ कृपया रोजगार की स्थिति का चयन करें

Employed (i.e Salaried)/ नियोजित (अर्थात वेतनभोगी) Self-employed/ स्व-नियोजित Non Employed/ गैर-नियोजित

Nature of organisation/ संघटन का प्रकार

MNC/ बहुराष्ट्रीय कंपनी Government/ सरकार PSU/ पीएसयू Public Ltd./ पब्लिक लिमिटेड Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप
 Partnership/ पार्टनरशिप HUF/ एचयूएफ Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Nature of business/ व्यवसाय के प्रकार

Software/ सॉफ्टवेयर IT/ आईटी Hardware/ हार्डवेयर Finance/ फाइनेन्स Insurance/ बीमा FMCG/ एफएमसीजी
 Engineering/ इंजिनियरिंग Infrastructure/ इन्फ्रास्ट्रक्चर Textile/ टेक्सटाइल Leather/ लेदर
 Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Your firm is/ आपकी फर्म है Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप Partnership/ पार्टनरशिप Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड

Your profession is/ आपका व्यवसाय है CA/ सीए Journalist/ पत्रकार Architect/ वास्तुकार Consultant/ सलाहकार Lawyer/ वकील

Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Employment role:/ रोजगार की भूमिका: Business Owner/ व्यावसायिक स्वामी Key Controller/ मुख्य नियंत्रण Sole Trader/ एकल व्यापारी

Employee/ कर्मचारी

Your occupation is/ आपका व्यवसाय है:

Senior MGMT/ वरिष्ठ एमजीएमटी Manager/Executive/ व्यवस्थापक/कार्यकारी Non-Executive/ अकार्यकारी Teacher/ शिक्षक Police/ पुलिस
 Armed forces/ सशस्त्र सेनाएं Salaried/ वेतनभोगी Seafarer/ नाविक (सीफेसर)

Company name/ कंपनी का नाम _____ Designation/ पद _____

Department/ विभाग _____ Gross annual salary/earnings/ सकल वार्षिक वेतन/आमदनी _____

Company Address/ कंपनी का पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर _____ District/ जिला _____ State/ राज्य _____

Country/Territory/ देश/क्षेत्र _____ Pin code/ पिन कोड _____

Office Landline no./ कार्यालय लैंडलाइन नं. _____ Please mention 'NA' if you do not have a telephone

number./ यदि आपके पास कार्यालय लैंडलाइन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' भरें.

Personal Details / वैयक्तिक विवरण (Joint Accountholder 1)/ संयुक्त खाताधारी 1

Residential status/ निवासिय स्थिति Resident/ निवासि Non-Resident/ गैर-निवासि Foreign national/ विदेशी नागरिक Person of Indian Origin/ भारतीय मूल के व्यक्ति

Salutation/ संबोधन Mr./ श्री Mrs./ श्रीमति Ms./ सुश्री Mst./ मास्टर Title/ शीर्षक Dr./ डॉ. Prof./ प्रो. Not Applicable/ लागू नहीं

Any other/ कोई अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Full Name/ पूरा नाम (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Are you known by any other names:/ क्या आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं: Yes/ हाँ No/ नहीं

Former/Other name/ पूर्व/अन्य नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Maiden name/ प्रथम नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Name/ नाम (Same as per ID proof)/ (वही जो पहचान पत्र प्रमाण में है) (provide if different from Full name)/ यदि भिन्न हो तो पूरा नाम दें)

How would you like to be addressed in our communication?/ किस तरह आप हमारे पत्राचार में सम्बोधित किया जाना पसन्द करोगे?

Name as desired on the Card/ जो नाम कार्ड पर चाहिए _____

Date of birth/ जन्म तिथि _____ Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender/ तीसरा लिंग

KYC number/ केवाईसी नंबर (If available/यदि उपलब्ध हो) _____

Date of birth/ जन्म तिथि _____ Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender/ तीसरा लिंग

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Place/City of Birth/ जन्म का स्थान/शहर _____

Country of birth/ जन्म देश _____

Nationality/Citizenship of/ राष्ट्रियता/नागरिकता _____ If more than one,/ यदि एक से अधिक तो, (mention here/ यहां उल्लेख करें) _____

Multiple Nationality/ बहुराष्ट्रियता Yes/ हाँ No/ नहीं Nationality/Citizenship 2/ राष्ट्रियता/नागरिकता 2 _____

Nationality/Citizenship 3/ राष्ट्रियता/नागरिकता 3 _____

KYC number/ केवाईसी नंबर _____ (Number would be given by Central KYC registry) (If available)/ (नंबर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा) (यदि उपलब्ध हो)

Marital status/ वैवाहिक स्थिति: Married/ विवाहित Single/ एकल Other/ अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Father's name/ पिता का नाम

Mother's name/ माता का नाम

Spouse's name/ पति/पत्नी का नाम (If available)/ (यदि उपलब्ध हो)

Relationship with the First Applicant/ पहले आवेदक के साथ संबंध

PAN details: It is mandatory to provide a self-attested copy of the PAN card (or Form 60, as applicable). / **पैन के ब्यौरे:** पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (या फार्म 60, जो भी लागू हो) देना अनिवार्य है.

For Minor accounts, Form 60 of minor is not required if guardian's PAN is available, provided minor's income does not exceed amount chargeable to tax. / अवयस्क खातों के लिए, यदि संरक्षक का पैन उपलब्ध है तो अवयस्क का फॉर्म 60 आवश्यक नहीं है, बशर्ते अवयस्क की आय कर के लिए प्रभाय राशि से अधिक न हो.

Permanent Account Number (PAN)/ परमानेंट अकाउन्ट नंबर (पैन) PAN card number/ मेरा पैन नंबर _____

Form 60 attached/ फॉर्म 60 संलग्न NA/ लागू नहीं

Officially Valid Documents - Proof of Identity/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - पहचान का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी PAN card/ पैन कार्ड Permanent Driving licence/ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स

Others/अन्य _____

Document number/ दस्तावेज सं. _____ Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो) _____

For Aadhaar please mention only last 4 digits. Please blank out first 8 digits in Aadhaar copy./ आधार के लिए कृपया केवल अंतिम 4 अंकों का उल्लेख करें. कृपया आधार कॉपी में पहले 8 अंक पूरी तरह से मिटा या ढक दें.

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

PAN card/ पैन कार्ड Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी Driving licence/ ड्राइविंग लाइसेन्स

Others/अन्य# _____

Document number/ दस्तावेज सं. _____ Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो) _____

If "Yes", यदि 'हाँ', please state Aadhaar number / तो आधार नंबर उल्लिखित करें _____

#For information on additional documents acceptable as identity/address proof please get in touch with the nearest HSBC branch in India or your Relationship Manager or call the HSBC India Contact Centre./ #पहचान/पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य अतिरिक्त दस्तावेजों के बारे में जानकारी के लिए कृपया भारत में नजदीकी एचएसबीसी शाखा या अपने संबंध प्रबंधक से संपर्क करें अथवा एचएसबीसी इंडिया संपर्क केंद्र को कॉल करें.

Documents accepted as a Proof of Address should mention the address details. In case Proof of Identity does not contain Date of Birth, an additional proof for the same is required. It is mandatory to provide a self-attested copy of Passport for Non-Resident customer./ पते के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों में पते के पूरे ब्यौर उल्लिखित हों. यदि पहचान प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो उसका अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक होगा. अनिवासी ग्राहक के लिए पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करना अनिवार्य है.

In case Proof of Identity does not contain Date of Birth an additional proof for the same is required./ यदि पहचान प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो उसका अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक होगा.

CRS - Individual Tax Residency Self-Certification/सीआरएस - वैयक्तिक कर निवासिता स्व-प्रमाणन

Confirm if you are a tax resident of only India/ पुष्टि करें यदि आप केवल भारत के कर निवासी हैं Yes/ हाँ No/ नहीं

Please complete the following table indicating:/ कृपया निम्नलिखित सूचित करते हुए निम्न तालिका भरें:

(i) The country where the accountholder is resident for tax purposes./ (i) देश जहां खाताधारक कर प्रयोजनों के लिए निवासी हो.

(ii) The accountholder's TIN (Tax Identification Number) for each country indicated./ (ii) सूचित किए गए हरेक देश के लिए खाताधारक का टिन (कर पहचान संख्या)

Accountholder - The term 'accountholder' means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the financial institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the accountholder. In these circumstances that other person is the accountholder. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the accountholder./

खाताधारक - 'खाताधारक' पद का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय खाते के धारक के रूप में सूचीबद्ध या अभिज्ञात किया जाता है जो खाता रखता है. एक एजेंट, एक संरक्षक, एक नॉमिनी, एक हस्ताक्षरकर्ता, एक निवेश सलाहकार, एक मध्यस्थ, या एक कानूनी अभिभावक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए एक वित्तीय खाता रखने वाला व्यक्ति, किसी वित्तीय संस्था

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

के अलावा, खाताधारक के रूप में नहीं माना जाता है। इन परिस्थितियों में कि अन्य व्यक्ति खाताधारक है। उदाहरण के लिए, माता-पिता / बच्चे के संबंध के मामले में, जहां माता-पिता एक कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बच्चे को खाताधारक माना जाता है।

Tax Identification Number (TIN) - TIN (including functional equivalent) – The term TIN means Taxpayer Identification Number assigned to a person in the country or territory in which he is resident for tax purposes and includes a functional equivalent in case no such number is assigned. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/. **कर पहचान संख्या (टिन)** – टिन (कार्यात्मक समतुल्य सहित) – टिन (TIN) शब्द का अर्थ उस देश या क्षेत्र के किसी व्यक्ति को आबंटित करदाता पहचान संख्या है जिसमें वह कर उद्देश्यों के लिए निवासी होता है और ऐसी संख्या आबंटित न किए जाने की स्थिति में एक कार्यात्मक समतुल्य भी शामिल होता है। टिन किसी अधिकार क्षेत्र द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को आबंटित अक्षरों या अंकों का एक अनूठा संयोजन है और इस तरह के क्षेत्राधिकार के कर कानूनों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति या संस्था की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्वीकार्य टिन के अतिरिक्त विवरण निम्न लिंक पर देखे जा सकते हैं: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a functional equivalent). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number, PAN (Permanent Account number) and resident registration number./ कुछ क्षेत्राधिकार टिन जारी नहीं करते हैं। हालांकि, ये क्षेत्राधिकार अक्सर पहचान के समतुल्य स्तर (एक कार्यात्मक समतुल्य) के साथ कुछ अन्य उच्च अखंडता संख्या का उपयोग करते हैं। उस प्रकार के उदाहरणों में शामिल हैं, व्यक्तियों के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा/ बीमा संख्या, नागरिक/ व्यक्तिगत पहचान/ सेवा कोड/ संख्या, और निवासी पंजीकरण संख्या, पैन (स्थायी खाता संख्या) और निवासी पंजीकरण संख्या।

If the accountholder is tax resident in more than one country please use a separate sheet. If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason. A, B or C, details of which are mentioned below the table./ यदि खाताधारक एक से अधिक देशों में कर निवासी है, तो कृपया एक अलग शीट का उपयोग करें। यदि कोई टिन अनुपलब्ध है, तो कृपया उचित कारण ए, बी या सी दें जिनका विवरण तालिका के नीचे उल्लिखित है।

	Country of tax residence/Country of TIN issuance/कर निवास का देश/ टिन जारीकर्ता देश	TIN/ टिन	If no TIN available enter Reason A, B or C/ यदि कोई टिन उपलब्ध न हो तो कारण ए, बी या सी भरें	If 'B' is selected, please explain why unable to obtain TIN/ यदि 'बी' चुना जाता है, तो कृपया स्पष्ट करें कि टिन क्यों प्राप्त नहीं कर सके।
1.				
2.				
3.				

Reason A The country where I am liable to pay tax does not issue TINs to its residents./ **कारण ए:** वह देश जहां मैं कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हूँ, अपने निवासियों को टिन जारी नहीं करता है।

Reason B The accountholder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)/ **कारण बी:** खाताधारक अन्यथा टिन या समकक्ष संख्या प्राप्त करने में असमर्थ है। (यदि आपने इस कारण को चुना है तो कृपया नीचे दी गई तालिका में यह बताएं कि आप टिन प्राप्त करने में असमर्थ क्यों हैं)

Reason C No TIN is required. (Note: Only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered in the table do not require the TIN to be disclosed)/ **कारण सी:** किसी टिन की आवश्यकता नहीं है। (नोट: केवल इस कारण का चयन करें यदि तालिका में दर्ज किए गए कर निवास के देश के अधिकारियों को टिन को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है)

Even if you have already provided information in relation to the United States Government's Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), you are still needed to provide additional information for the CRS as this is a separate requirement under the local regulation./ भले ही आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर-अनुपालन अधिनियम (फटका) के संबंध में जानकारी पहले ही दे चुके हों, आपको सीआरएस के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा क्योंकि स्थानीय कानून के अंतर्गत यह एक अलग अपेक्षा है।

Current Residential Address/ वर्तमान आवासीय पता Address Type:/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय और कारोबारी

Is this a Temporary Address/ क्या यह अस्थायी पता है Yes/ हाँ No/ नहीं (You need to update your current residential address along with the required proof with the Bank once the address is confirmed)/ (पते की पुष्टि हो जाने के बाद आपको आवश्यक प्रमाण के साथ अपने वर्तमान आवासीय पते को अपडेट करना होगा)

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Note: In case of only P.O. Box address, it is mandatory to provide the Area/Landmark details./ **नोट:** केवल डाकघर बॉक्स पते के मामले में इलाके/लैंडमार्क का विवरण देना अनिवार्य है।

At this address since:/ इस पते पर कब से: Do you have any alternate residential address(es)/ क्या आपका कोई वैकल्पिक आवासीय पता है

Yes/ हाँ No/ नहीं use DD/MM/YYYY Format/(तारीख माह वर्ष फॉर्मेट में) (If yes, please provide information in Additional Details Section towards end of the form)/(यदि हाँ तो कृपया फॉर्म के अंत में आवासीय पते के खंड में जानकारी दें)

Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number. (यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Mobile / मोबाइल + Please mention 'NA' if you do not have a mobile number/ (यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Mobile Alerts Registration/ मोबाइल अलर्ट्स रजिस्ट्रेशन Required/ चाहिए Not required / नहीं चाहिए

I would like to opt for account statement by e-mail / मैं ईमेल द्वारा खाते का विवरण प्राप्त करने का विकल्प देना चाहता हूँ: Yes/ हाँ No/ नहीं If you opt for electronic statement, no physical statement will be send/ यदि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट का विकल्प चुनते हैं तो कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा।

E-mail/ ईमेल

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Permanent Address/ स्थायी पता: Same as current residential address/ वही जो वर्तमान आवासीय पता है Yes/ हाँ No/ नहीं

Permanent Address/ स्थायी पता: Type of Address/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय एवं कारोबार
 Business/ कारोबार Registered office/ पंजीकृत कार्यालय

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res./) टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Previous Address/ पूर्व पता (if resident at current address for less than 3 years/ (यदि वर्तमान पते पर 3 वर्ष से कम से निवास हो)

Years at previous address/ पूर्व पते पर वर्ष

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res./) टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Other/alternate Residential Address/अन्य/वैकल्पिक आवासीय पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res./) टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Current Address in the jurisdiction details where applicant is resident for Tax Purposes / अधिकार-क्षेत्र में वर्तमान पता जहां आवेदक कर प्रयोजनों के लिए निवासी है.

Same as/ के समान Current Resident address/ वर्तमान आवासीय पता Permanent address/ स्थायी पता Other Residential address/ अन्य आवासीय पता

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration /विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) संबंधी घोषणा

Are you a US Person/ क्या आप अमेरिकी व्यक्ति हैं Yes/ हाँ No/ नहीं

You will also be required to complete a Form W9/W8 with explanation, if any of the information in the account opening form indicates any US indicia.

The Form W9/W8 will be available on an external website -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> यदि खाता खोलने के फॉर्म में कोई सूचना कोई अमेरिकी संबंध सूचित करता है तो आपको स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 भरना होगा. यह फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 एक बाह्य वेबसाइट -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> पर उपलब्ध होगी.

Employment Details/ रोजगार के ब्यौरे

Please check the boxes and fill the requested information under./ कृपया खानों को चेक करें और नीचे अपेक्षित जानकारी भरें.

Please select Employment status/ कृपया रोजगार की स्थिति का चयन करें

Employed (i.e Salaried)/ नियोजित (अर्थात वेतनभोगी) Self-employed/ स्व-नियोजित Non Employed/ गैर-नियोजित

Nature of organisation/ संघटन का प्रकार

MNC/ बहुराष्ट्रीय कंपनी Government/ सरकार PSU/ पीएसयू Public Ltd./ पब्लिक लिमिटेड Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप
 Partnership/ पार्टनरशिप HUF/ एचयूएफ Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Nature of business/ व्यवसाय के प्रकार

Software/ सॉफ्टवेयर IT/ आईटी Hardware/ हार्डवेयर Finance/ फाइनेन्स Insurance/ बीमा FMCG/ एफएमसीजी

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Engineering/ इंजिनियरिंग Infrastructure/ इन्फ्रास्ट्रक्चर Textile/ टेक्सटाइल Leather / लेदर

Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Your firm is/ आपकी फर्म है Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप Partnership/ पार्टनरशिप Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड

Your profession is/ आपका व्यवसाय है CA/ सीए Journalist/ पत्रकार Architect/ वास्तुकार Consultant/ सलाहकार Lawyer/ वकील

Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Employment role:/ रोजगार की भूमिका: Business Owner/ व्यावसायिक स्वामी Key Controller/ मुख्य नियंत्रण Sole Trader/ एकल व्यापारी

Employee/ कर्मचारी

Your occupation is/ आपका व्यवसाय है:

Senior MGMT/ वरिष्ठ एमजीएमटी Manager/Executive/ व्यवस्थापक/कार्यकारी Non-Executive/ अकार्यकारी Teacher/ शिक्षक Police/ पुलिस

Armed forces/ सशस्त्र सेनाएं Salaried/ वेतनभोगी Seafarer/ नाविक (सीफेसर)

Company name/ कंपनी का नाम _____

Designation/ पद _____

Department/ विभाग _____

Gross annual salary/earnings/ सकल वार्षिक वेतन/आमदनी _____

Company Address/ कंपनी का पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर _____ District/ जिला _____ State/ राज्य _____

Country/Territory/ देश/क्षेत्र _____ Pin code/ पिन कोड _____

Office Landline no./ कार्यालय लैंडलाइन नं. _____ Please mention 'NA' if you do not have a telephone number./ यदि आपके पास कार्यालय लैंडलाइन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' भरें.

Personal Details / वैयक्तिक विवरण (Joint Accountholder 1)/ संयुक्त खाताधारी 2

Residential status/ निवासिय स्थिति Resident/ निवासी Non-Resident/ गैर-निवासी Foreign national/ विदेशी नागरिक Person of Indian Origin/ भारतीय मूल के व्यक्ति

Salutation/ संबोधन Mr./ श्री Mrs./ श्रीमति Ms./ सुश्री Mst./ मास्टर Title/ शीर्षक Dr./ डॉ. Prof./ प्रो. Not Applicable/ लागू नहीं

Any other/ कोई अन्य Please specify/कृपया निर्दिष्ट करें _____

Full Name/ पूरा नाम (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Are you known by any other names:/ क्या आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं: Yes/ हाँ No/ नहीं

Former/Other name/ पूर्व/अन्य नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Maiden name/ प्रथम नाम (If any)/ (यदि कोई है) (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Name/ नाम (Same as per ID proof)/ (वही जो पहचान पत्र प्रमाण में है) (provide if different from Full name)/ यदि भिन्न हो तो पूरा नाम दें

How would you like to be addressed in our communication?/ किस तरह आप हमारे पत्राचार में सम्बोधित किया जाना पसन्द करोगे?

Name as desired on the Card/ जो नाम कार्ड पर चाहिए _____

Date of birth/ जन्म तिथि _____ Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender / तीसरा लिंग

KYC number/ केवाईसी नंबर (If available)/ (यदि उपलब्ध हो) _____

Date of birth/ जन्म तिथि _____ Gender/ लिंग Male/ पुरुष Female/ स्त्री Third Gender / तीसरा लिंग

Place/City of Birth/ जन्म का स्थान/शहर _____ Country of birth/ जन्म देश _____

Nationality/Citizenship of/ राष्ट्रियता/नागरिकता _____ If more than one,/ यदि एक से अधिक तो, (mention here/ यहां उल्लेख करें) _____

Marital status/ वैवाहिक स्थिति: Married/ विवाहित Single/ एकल Other/ अन्य Please specify/ कृपया निर्दिष्ट करें _____

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Father's name/ पिता का नाम

Mother's name/ माता का नाम

Spouse's name/ पति/पत्नी का नाम (If available)/ यदि उपलब्ध हो

Relationship with the First Applicant/ पहले आवेदक के साथ संबंध

PAN details: It is mandatory to provide a self-attested copy of the PAN card (or Form 60, as applicable). / **पैन के ब्यौरे:** पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (या फार्म 60, जो भी लागू हो) देना अनिवार्य है.

For Minor accounts, Form 60 of minor is not required if guardian's PAN is available, provided minor's income does not exceed amount chargeable to tax. / अवयस्क खातों के लिए, यदि संरक्षक का पैन उपलब्ध है तो अवयस्क का फॉर्म 60 आवश्यक नहीं है, बशर्ते अवयस्क की आय कर के लिए प्रभार्य राशि से अधिक न हो.

Permanent Account Number (PAN)/ परमानेंट अकाउन्ट नंबर (पैन) PAN card number/ मेरा पैन नंबर

Form 60 attached/ फॉर्म 60 संलग्न NA/ लागू नहीं

Officially Valid Documents - Proof of Identity/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - पहचान का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी PAN card/ पैन कार्ड Permanent Driving licence/ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स
 Others/अन्य _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

For Aadhaar please mention only last 4 digits. Please blank out first 8 digits in Aadhaar copy./ आधार के लिए कृपया केवल अंतिम 4 अंकों का उल्लेख करें. कृपया आधार कॉपी में पहले 8 अंक पूरी तरह से मिटा या ढक दें.

Officially Valid Documents/ आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज - Proof of Address/ पते का प्रमाण (any one)/ (कोई एक)

PAN card/ पैन कार्ड Aadhaar card/ आधार कार्ड Passport/ पासपोर्ट Voters ID/ मतदाता आईडी Driving licence/ ड्राइविंग लाइसेन्स
 Others/अन्य# _____

Document number/ दस्तावेज सं. Expiry date/ समाप्ति तारीख (wherever applicable)/ (जहां भी लागू हो)

If "Yes", यदि 'हाँ', please state Aadhaar number / तो आधार नंबर उल्लिखित करें

*For information on additional documents acceptable as identity/address proof please get in touch with the nearest HSBC branch in India or your Relationship Manager or call the HSBC India Contact Centre./ *पहचान/पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य अतिरिक्त दस्तावेजों के बारे में जानकारी के लिए कृपया भारत में नजदीकी एचएसबीसी शाखा या अपने संबंध प्रबंधक से संपर्क करें अथवा एचएसबीसी इंडिया संपर्क केंद्र को कॉल करें.

Documents accepted as a Proof of Address should mention the address details. In case Proof of Identity does not contain Date of Birth, an additional proof for the same is required. It is mandatory to provide a self-attested copy of Passport for Non-Resident customer./ पते के प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेजों में पते के पूरे ब्यौर उल्लिखित हों. यदि पहचान प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो उसका अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक होगा. अनिवासी ग्राहक के लिए पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करना अनिवार्य है.

In case Proof of Identity does not contain Date of Birth an additional proof for the same is required./ यदि पहचान प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न हो तो उसका अतिरिक्त प्रमाण आवश्यक होगा.

CRS - Individual Tax Residency Self-Certification/ सीआरएस - वैयक्तिक कर निवासिता स्व-प्रमाणन

Confirm if you are a tax resident of only India/ पुष्टि करें यदि आप केवल भारत के कर निवासी हैं Yes/ हाँ No/ नहीं

Please complete the following table indicating:/ कृपया निम्नलिखित सूचित करते हुए निम्न तालिका भरें:

(i) The country where the accountholder is resident for tax purposes./ (i) देश जहां खाताधारक कर प्रयोजनों के लिए निवासी हो.

(ii) The accountholder's TIN (Tax Identification Number) for each country./ (ii) हरेक देश के लिए खाताधारक का टिन (कर पहचान संख्या)

Accountholder/ खाताधारक - The term 'accountholder' means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the financial institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the accountholder. In these circumstances that other person is the accountholder. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the accountholder./ 'खाताधारक' पद का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय खाते के धारक के रूप में सूचीबद्ध या अभिज्ञात किया जाता है जो खाता रखता है. एक एजेंट, एक संरक्षक, एक नॉमिनी, एक हस्ताक्षरकर्ता, एक निवेश सलाहकार, एक मध्यस्थ, या एक कानूनी अभिभावक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए एक वित्तीय खाता रखने वाला व्यक्ति, किसी वित्तीय संस्था के अलावा, खाताधारक के रूप में नहीं माना जाता है. इन परिस्थितियों में कि अन्य व्यक्ति खाताधारक है. उदाहरण के लिए, माता-पिता / बच्चे के संबंध के मामले में, जहां माता-पिता एक कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बच्चे को खाताधारक माना जाता है.

Tax Identification Number (TIN)/ कर पहचान संख्या (टिन) - TIN (including functional equivalent) - The term TIN means Taxpayer Identification Number assigned to a person in the country or territory in which he is resident for tax purposes and includes a functional equivalent in case no such number is assigned. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ टिन (कार्यात्मक समतुल्य सहित) - टिन (TIN) शब्द का अर्थ उस देश या क्षेत्र के किसी व्यक्ति को आबंटित करदाता पहचान संख्या है जिसमें वह कर उद्देश्यों के लिए निवासी होता है और ऐसी संख्या आबंटित न किए जाने की स्थिति में एक कार्यात्मक समतुल्य भी शामिल होता है. टिन किसी अधिकार क्षेत्र द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को आबंटित अक्षरों या अंकों का एक अनूठा संयोजन है और इस तरह के क्षेत्राधिकार के कर कानूनों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति या संस्था की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है. स्वीकार्य टिन के अतिरिक्त विवरण निम्न लिंक पर देखे जा सकते हैं: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a functional equivalent). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

number, and resident registration number, PAN (Permanent Account number) and resident registration number./ कुछ क्षेत्राधिकार टिन जारी नहीं करते हैं. हालांकि, ये क्षेत्राधिकार अक्सर पहचान के समतुल्य स्तर (एक कार्यात्मक समतुल्य) के साथ कुछ अन्य उच्च अखंडता संख्या का उपयोग करते हैं. उस प्रकार के उदाहरणों में शामिल हैं, व्यक्तियों के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा/ बीमा संख्या, नागरिक/ व्यक्तिगत पहचान/ सेवा कोड/ संख्या, और निवासी पंजीकरण संख्या, पैन (स्थायी खाता संख्या) और निवासी पंजीकरण संख्या.

If the account holder is tax resident in more than one country please use a separate sheet. If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason. A, B or C, details of which are mentioned below the table./ यदि खाताधारक एक से अधिक देशों में कर निवासी है, तो कृपया एक अलग शीट का उपयोग करें. यदि कोई टिन अनुपलब्ध है, तो कृपया उचित कारण ए, बी या सी दें जिनका विवरण तालिका के नीचे उल्लिखित है.

A, B or C, details of which are mentioned below the table./ यदि खाताधारक एक से अधिक देशों में कर निवासी है, तो कृपया एक अलग शीट का उपयोग करें. यदि कोई टिन अनुपलब्ध है, तो कृपया उचित कारण ए, बी या सी दें जिनका विवरण तालिका के नीचे उल्लिखित है.

	Country of tax residence/Country of TIN issuance/ कर निवास का देश/ टिन जारीकर्ता देश	TIN/ टिन	If no TIN available enter Reason A, B or C/ यदि कोई टिन उपलब्ध न हो तो कारण ए, बी या सी भरें	If 'B' is selected, please explain why unable to obtain TIN/ यदि 'बी' चुना जाता है, तो कृपया स्पष्ट करें कि टिन क्यों प्राप्त नहीं कर सके.
1.				
2.				
3.				

Reason A The country where I am liable to pay tax does not issue TINs to its residents./ **कारण ए:** वह देश जहां मैं कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हूँ, अपने निवासियों को टिन जारी नहीं करता है.

Reason B The account holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)/ **कारण बी:** खाताधारक अन्यथा टिन या समकक्ष संख्या प्राप्त करने में असमर्थ है. (यदि आपने इस कारण को चुना है तो कृपया नीचे दी गई तालिका में यह बताएं कि आप टिन प्राप्त करने में असमर्थ क्यों हैं)

Reason C No TIN is required. (Note: Only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered in the table do not require the TIN to be disclosed)/ **कारण सी:** किसी टिन की आवश्यकता नहीं है. (नोट: केवल इस कारण का चयन करें यदि तालिका में दर्ज किए गए कर निवास के देश के अधिकारियों को टिन को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है)

Even if you have already provided information in relation to the United States Government's Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), you are still needed to provide additional information for the CRS as this is a separate requirement under the local regulation./ भले ही आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर-अनुपालन अधिनियम (फटका) के संबंध में जानकारी पहले ही दे चुके हों, आपको सीआरएस के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना आवश्यक होगा क्योंकि स्थानीय कानून के अंतर्गत यह एक अलग अपेक्षा है.

Current Residential Address/ वर्तमान आवासीय पता

Address Type:/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय और कारोबारी

Is this a Temporary Address/ क्या यह अस्थायी पता है Yes/ हाँ No/ नहीं (You need to update your current residential address along with the required proof with the Bank once the address is confirmed)/ (पते की पुष्टि हो जाने के बाद आपको आवश्यक प्रमाण के साथ अपने वर्तमान आवासीय पते को अपडेट करना होगा)

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Note:/ In case of only P.O. Box address, it is mandatory to provide the Area/Landmark details./ **नोट:** केवल डाकघर बॉक्स पते के मामले में इलाके/लैंडमार्क का विवरण देना अनिवार्य है.

At this address since:/ इस पते पर कब से: Do you have any alternate residential address(es)/ क्या आपका कोई वैकल्पिक आवासीय पता है

Yes/ हाँ No/ नहीं use DD/MM/YYYY Format/(तारीख माह वर्ष फॉर्मेट में) (If yes, please provide information in Additional Details Section towards end of the form)/(यदि हाँ तो कृपया फॉर्म के अंत में आवासीय पते के खंड में जानकारी दें)

Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number. (यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Mobile / मोबाइल + Please mention 'NA' if you do not have a mobile number/ (यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Mobile Alerts Registration/ मोबाइल अलर्ट्स रजिस्ट्रेशन Required/ चाहिए Not required / नहीं चाहिए

I would like to opt for account statement by e-mail / मैं ईमेल द्वारा खाते का विवरण प्राप्त करने का विकल्प देना चाहता हूँ: Yes/ हाँ No/ नहीं If you opt for electronic statement, no physical statement will be send/ यदि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट का विकल्प चुनते हैं तो कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा.

E-mail/ ईमेल

Permanent Address:/ स्थायी पता: Same as current residential address/ वही जो वर्तमान आवासीय पता है Yes/ हाँ No/ नहीं

Permanent Address/ स्थायी पता: Type of Address/ पते का प्रकार: Residential/ आवासीय Residential and Business/ आवासीय एवं कारोबार Business/ कारोबार Registered office/ पंजीकृत कार्यालय

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य
Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड
Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.) Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Previous Address/ पूर्व पता (if resident at current address for less than 3 years/ (यदि वर्तमान पते पर 3 वर्ष से कम से निवास हो)

Years at previous address/ पूर्व पते पर वर्ष

Flat number and building name / फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name / रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेली. (आ.)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Other/alternate Residential Address/अन्य/वैकल्पिक आवासीय पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र

Pin code/ पिन कोड

Telephone (Res.)/ टेलीफोन (आ.)

Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड)

Current Address in the jurisdiction details where applicant is resident for Tax Purposes / अधिकार-क्षेत्र में वर्तमान पता जहां आवेदक कर प्रयोजनों के लिए निवासी है.

Same as/ वही जो Current Resident address/ वर्तमान आवासीय पता Permanent address/ स्थायी पता Other Residential address/ अन्य आवासीय पता

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Declaration /विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) संबंधी घोषणा

Are you a US Person/ क्या आप अमेरिकी व्यक्ति हैं Yes/ हाँ No/ नहीं

You will also be required to complete a Form W9/W8 with explanation, if any of the information in the account opening form indicates any US indicia. The Form W9/W8 will be available on an external website -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> यदि खाता खोलने के फॉर्म में कोई सूचना कोई अमेरिकी संबंध सूचित करता है तो आपको स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 भरना होगा. यह फॉर्म डब्ल्यू9/डब्ल्यू8 एक बाह्य वेबसाइट -<https://www.irs.gov/forms-pubs/> पर उपलब्ध होगी.

Employment Details/ रोजगार के ब्यौरेपत्र-व्यवहार हेतु पता

Please check the boxes and fill the requested information under./ कृपया खानों को चेक करें और नीचे अपेक्षित जानकारी भरें.

Please select Employment status/ कृपया रोजगार की स्थिति का चयन करें

Employed (i.e Salaried)/ नियोजित (अर्थात वेतनभोगी) Self-employed/ स्व-नियोजित Non Employed/ गैर-नियोजित

Nature of organisation/ संघटन का प्रकार

MNC/ बहुराष्ट्रीय कंपनी Government / सरकार PSU/ पीएसयू Public Ltd./ पब्लिक लिमिटेड Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप
 Partnership/ पार्टनरशिप HUF/ एचयूएफ Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Nature of business/ व्यवसाय के प्रकार

Software/ सॉफ्टवेयर IT / आईटी Hardware/ हार्डवेयर Finance/ फाइनेन्स Insurance/ बीमा FMCG/ एफएमसीजी
 Engineering/ इंजिनियरिंग Infrastructure/ इन्फ्रास्ट्रक्चर Textile/ टेक्सटाइल Leather / लेदर
 Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Your firm is/ आपकी फर्म है Proprietorship/ प्रोप्राइटरशिप Partnership/ पार्टनरशिप Private Ltd./ प्राइवेट लिमिटेड

Your profession is/ आपका व्यवसाय है CA/ सीए Journalist/ पत्रकार Architect/ वास्तुकार Consultant/ सलाहकार Lawyer/ वकील

Others/ अन्य (please specify)/ (कृपया विवरण दें) _____

Employment role:/ रोजगार की भूमिका: Business Owner/ व्यावसायिक स्वामी Key Controller/ मुख्य नियंत्रण Sole Trader/ एकल व्यापारी

Employee/ कर्मचारी

Your occupation is/ आपका व्यवसाय है:

Senior MGMT/ वरिष्ठ एमजीएमटी Manager/Executive/ व्यवस्थापक/कार्यकारी Non-Executive/ अकार्यकारी Teacher/ शिक्षक Police/ पुलिस
 Armed forces/ सशस्त्र सेनाएं Salaried/ वेतनभोगी Seafarer/ नाविक (सीफेरर)

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Company name/ कंपनी का नाम _____

Designation/ पद _____

Department/ विभाग _____

Gross annual salary/earnings/ सकल वार्षिक वेतन/ आमदनी _____

Company Address/ कंपनी का पता

Flat number and building name/ फ्लैट नंबर एवं भवन का नाम

Road number/name/ रोड क्रमांक/ नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/ क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Office Landline no./ कार्यालय लैंडलाइन नं. Please mention 'NA' if you do not have a telephone number.
(ISD code)/(आईएसडी कोड) (STD code)/(एसटीडी कोड) / (यदि आपके पास टेलीफोन नंबर न हो तो कृपया 'लागू नहीं' लिखें)

Address for Communication/ पत्र-व्यवहार हेतु पता

Current residential address/ वर्तमान आवासीय पता Permanent address/ स्थायी पता Company address/ कंपनी का पता

Mode of Funding/ निधीयन का तरीका

Do you intend to make an initial deposit/ क्या आप प्रारंभिक जमा करना चाहते हैं Yes/ हाँ No/ नहीं

Mode of initial funds to be transferred to the account/ खाते में प्रारंभिक निधियों को अंतरित करने का तरीका Cash/ नकदी Non-Cash/ गैर-नकदी
 Both/ दोनों

Source of the initial funds in the account/ खाते में प्रारंभिक निधियों का स्रोत: _____

Accountholder's accounts with other banks/ financial institutions/ अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में खाताधारक के खाते

Others/ अन्य _____

Country of origin/ उद्गम देश _____ Mode of transfer:/ अंतरण का तरीका: _____

Cheque number/RTGS/NEFT Transfer/Other/ चेक संख्या/ आरटीजीएस/ एनईएफटी ट्रान्सफर/ अन्य

Initial Transfer Amount ₹/ ट्रान्सफर की गई प्रारंभिक राशि ₹

Please tick applicable box(es)/ कृपया लागू बॉक्स को टिक करें Mortgage Criteria/ बंधक मानदंड Existing Customer/ वर्तमान कस्टमर

Staff/ स्टाफ Other/ अन्य _____

HSBC Debit Card/ एचएसबीसी डेबिट कार्ड

Debit card(s)* / डेबिट कार्ड(स)* **Details/ ब्यौरे** **Debit card usage/ डेबिट कार्ड का उपयोग**

Sole/First a/c holder/ एकल/ प्रथम खाताधारक

Required/ चाहिए Name to be printed on debit card (maximum 19 alphabets including spaces) / डेबिट कार्ड पर प्रिंट किया जाने वाला नाम (अंतर सहित अधिकतम 19 अक्षर)

Domestic usage only/ केवल देशी उपयोग

Not required/ नहीं चाहिए

International and domestic usage/ अंतर्राष्ट्रीय एवं देशी उपयोग

Joint a/c holder 1/ संयुक्त खाताधारी 1

Required/ चाहिए Name to be printed on debit card (maximum 19 alphabets including spaces) / डेबिट कार्ड पर प्रिंट किया जाने वाला नाम (अंतर सहित अधिकतम 19 अक्षर)

Domestic usage only/ केवल देशी उपयोग

Not required/ नहीं चाहिए

International and domestic usage/ अंतर्राष्ट्रीय एवं देशी उपयोग

Joint a/c holder 2/ संयुक्त खाताधारी 2

Required/ चाहिए Name to be printed on debit card (maximum 19 alphabets including spaces) / डेबिट कार्ड पर प्रिंट किया जाने वाला नाम (अंतर सहित अधिकतम 19 अक्षर)

Domestic usage only/ केवल देशी उपयोग

Not required/ नहीं चाहिए

International and domestic usage/ अंतर्राष्ट्रीय एवं देशी उपयोग

Please note in absence of usage preference, HSBC India shall issue a debit card with domestic usage only./ कृपया नोट करें कि उपयोग का विकल्प न चुनने के मामले में एचएसबीसी केवल देशी उपयोग वाला डेबिट कार्ड जारी करेगा.

¹Enables usage of debit card in India only. Any overseas transaction including online transactions on international websites are prohibited./ ¹केवल भारत में डेबिट कार्ड का उपयोग करना समर्थ बनाता है. अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों पर ऑनलाइन लेन-देन सहित कोई भी विदेशी लेनदेन निषिद्ध है.

²Enables usage of card both in India and overseas. (Not applicable for NRO accounts and POA)./ ²भारत और विदेशों में कार्ड का उपयोग (एनआरओ खातों और पीओए के लिए लागू नहीं).

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

*In line with RBI guidelines, w.e.f. 1 December 2013, customers need to indicate their preference regarding domestic and international usage at the time of application./ *आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 दिसंबर 2013 से ग्राहकों को आवेदन के समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के बारे में अपनी पसंद को इंगित करना होगा.

*The annual charges on the debit card are waived off for the first year. Each debit card, including additional cards is priced at ₹300 per annum for HSBC Advance and ₹150 per annum for HSBC Savings account from the second year onwards. Issuance of debit card is mandatory, in case of instant welcome packs./ *डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क पहले वर्ष के लिए माफ होता है. दूसरे वर्ष से अतिरिक्त डेबिट कार्ड सहित प्रत्येक डेबिट कार्ड का शुल्क एचएसबीसी एडवांस के लिए 300 रुपये प्रतिवर्ष और एचएसबीसी बचत खाते के लिए 150 रुपये प्रतिवर्ष है. तत्काल स्वागत पैक के मामले में डेबिट कार्ड जारी करना अनिवार्य है.

Issuance of debit card is mandatory in case of instant welcome packs./ तत्काल स्वागत पैक के मामले में डेबिट कार्ड जारी करना अनिवार्य है.

Other Instructions / अन्य निर्देश

Nomination / नामांकन (Please avail of the nomination facility) / (कृपया नामांकन सुविधा का लाभ उठाएं) Required/ चाहिए (Please complete the nomination form in the optional section) / (कृपया वैकल्पिक खंड में नामांकन फॉर्म पूरा करें) Not required/ नहीं चाहिए

I confirm that I have read and understood the above information and do not wish to opt for Nomination./ मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त जानकारी पढ़ और समझ ली है और नामांकन का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं.

Sole/First Signature : / एकल/प्रथम के हस्ताक्षर: _____

Joint account holder 1 : / संयुक्त खाताधारी 1: _____

Joint account holder 2 : / संयुक्त खाताधारी 2: _____

AOA Staff ID : / एओए स्टाफ आईडी: _____

AOA Signature : / एओए हस्ताक्षर: _____

AOA Staff Name: / एओए स्टाफ नाम: _____

Nomination related information: / नामांकन से संबंधित जानकारी:

- 1) HSBC India recommends that all depositor(s) avail of the nomination facility except for Minor Accounts, where no Nomination is possible/ एचएसबीसी इंडिया की सिफारिश की है कि सभी जमाकर्ता, अवयस्क के खातों को छोड़कर जहाँ कोई नामांकन संभव नहीं है, नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ.
- 2) The nominee, in the event of death of the depositor(s), can receive the balance outstanding in the account as a trustee of legal affairs/ जमाकर्ता(ओं) की मृत्यु होने की स्थिति में, नामित व्यक्ति, मामलों के ट्रस्टी के रूप में खाते में बकाया राशि प्राप्त कर सकता है.
- 3) The account holder(s) can change or cancel the nomination at any point of time by submitting a prescribed form signed by them individually/ जमाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा वैयक्तिक रूप से हस्ताक्षरित एक निर्धारित प्रपत्र जमा करके किसी भी समय नामांकन को बदल या रद्द कर सकते हैं.
- 4) A fresh nomination is required for every new account (including savings/current and fixed deposits account) that you open with HSBC India/ एचएसबीसी इंडिया में आपके द्वारा खोले जाने वाले हर नए खाते (बचत / चालू और सावधि जमा खाते सहित) के लिए एक नया नामांकन आवश्यक है.
- 5) You can approach the branch to register your nomination at a later stage or to make changes to your nomination request at any point of time HSBC PhoneBanking service is provided only to customer, who have opted for signing instruction 'Singly' / either or survivor/ आप बाद में अपना नामांकन दर्ज करने के लिए या किसी भी समय अपने नामांकन अनुरोध में परिवर्तन करने के लिए शाखा से संपर्क कर सकते हैं. एचएसबीसी फोन बैंकिंग सेवा केवल उन ग्राहकों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने 'एकल' या दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी अनुदेश पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना है.

Level of activity anticipated/ प्रत्याशित गतिविधि का स्तर

Initial and ongoing sources of your wealth or income/ आपकी संपत्ति अथवा आय के प्रारंभिक एवं चालू स्रोत

- Earning from work/ कार्य से आय Earning from business interest/ व्यवसायिक ब्याज से आय Inheritance/ विरासत
- Personal savings/ नीजी बचत Return on investment/Investment matured/ निवेश/निवेश परिपक्वता पर प्राप्ति Earning given by spouse/ पति या पत्नी द्वारा दी गई प्राप्ति
- Sale of an asset (e.g. car, property, etc.)/ किसी संपत्ति जैसे कार, संपत्ति, इत्यादि का विक्रय
- Winning lottery prize money/ लॉटरी से जीती इनामी राशि Others/ अन्य (please specify/ कृपया विवरण दें _____)

Initial and ongoing sources of your wealth or income/ आपकी संपत्ति अथवा आय के प्रारंभिक एवं चालू स्रोत

- Earning from work/ कार्य से आय Earning from business interest/ व्यवसायिक ब्याज से आय Inheritance/ विरासत
- Personal savings/ नीजी बचत Return on investment/Investment matured/ निवेश/निवेश परिपक्वता पर प्राप्ति Earning given by spouse/ पति या पत्नी द्वारा दी गई प्राप्ति
- Sale of an asset (e.g. car, property, etc.)/ किसी संपत्ति जैसे कार, संपत्ति, इत्यादि का विक्रय

Transaction Details लेनदेन के ब्यौरे	Total credits per month प्रतिमाह कुल जमा	Total debits per month प्रति माह कुल नामे
Number of transactions लेनदेनों की संख्या		
Transaction amount (₹) लेनदेन की राशि (₹)		

Value of the funds to be deposited in the account(s) within 12 months of opening/ खाता खोलने के बाद 12 महीने के भीतर खाते (तों) में जमा की जाने वाली (in local currency/ निधियों का मूल्य) (₹) _____

Other than usual day-to-day living credits and transactions will you be conducting any other cash transactions on a regular basis/ दैनंदिन जीवन-निर्वाह जमाओं और लेनदेनों के अलावा, क्या आप नियमित आधार पर कोई अन्य लेनदेन करेंगे? Yes/ हाँ No/ नहीं

Would you conduct overseas banking transaction from this account?/ क्या आप इस खाते से समुद्रपारीय बैंकिंग लेनदेन करेंगे? Yes/ हाँ No/ नहीं

Anticipated Transaction (annually): प्रत्याशित लेनदेन (वार्षिक):	Cash to be deposited जमा की जाने वाली नकदी	Cash withdrawn आहरित की जाने वाली नकदी	Outward Remittance जावक विप्रेषण	Inward Remittance आवक विप्रेषण

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Country name(s) (applicable for remittance only)/ देश का नाम (केवल विप्रेषण के लिए लागू)				
Expected Value (amount in INR) अपेक्षित मूल्य (राशि भारतीय रुपये में)				
Frequency (volume) आवृत्ति (मात्रा)				
Reason for the transactions लेनदेन के कारण	<input type="checkbox"/> Regular Mandated Credits/ नियमित अधिदेशित जमा <input type="checkbox"/> Savings/ बचत	<input type="checkbox"/> Household Expenses/ घरेलू खर्च <input type="checkbox"/> Personal Expenses/ व्यक्तिगत खर्च <input type="checkbox"/> Children's Education/ School fees/ बच्चों की शिक्षा / स्कूल फीस <input type="checkbox"/> Regular Mandated debit/ नियमित अधिदेशित नामे <input type="checkbox"/> Major Purchases/ प्रमुख खरीदियां	<input type="checkbox"/> Household Expenses/ घरेलू खर्च <input type="checkbox"/> Personal Expenses/ व्यक्तिगत खर्च <input type="checkbox"/> Children's Education/ School fees/ बच्चों की शिक्षा / स्कूल फीस <input type="checkbox"/> Regular Mandated debit/ नियमित अधिदेशित नामे <input type="checkbox"/> Major Purchases/ प्रमुख खरीदियां	<input type="checkbox"/> Regular Mandated Credits/ नियमित अधिदेशित नामे <input type="checkbox"/> Savings/ बचत <input type="checkbox"/> Children's Education/ School fees/ बच्चों की शिक्षा / स्कूल फीस <input type="checkbox"/> Major Purchases/ प्रमुख खरीदियां <input type="checkbox"/> Household Expenses/ घरेलू खर्च

Country/Territory(s/ies) where your current net worth has been accumulated: / देश/ क्षेत्र जहां आपकी वर्तमान निवल संपत्ति संचित की गई है:

Country 1/ देश 1 _____ Country 2/ देश 2 _____

Country 3/ देश 3 _____

Associated Person(s)/ सम्बद्ध व्यक्ति

Is there any Associated person (e.g. Power of Attorney (POA), Guardian, Letter of Authority, Additional Cardholder, Contributor, etc.) on your accounts?/ क्या आपके खातों में कोई एसोसिएटेड व्यक्ति (जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी (POA), संरक्षक, प्राधिकार-पत्र, अतिरिक्त कार्डधारक, अंशदाता, आदि) है? Yes/ हाँ No/ नहीं

If yes, please provide information in Additional Details Section towards end of the form / यदि हाँ, तो कृपया फॉर्म के अंत में अतिरिक्त विवरण खंड में जानकारी प्रदान करें

Account operating instructions/ खाते के परिचालन संबंधी अनुदेश

Please select as applicable:/ कृपया जो लागू हो वह चुनें: _____

*This signing mandate is applicable for joint accountholder(s) for EEFC account. Please fill up the 'customer declaration/undertaking' separately./ *यह हस्ताक्षर अधिदेश EEFC खाते के लिए संयुक्त खाता धारकों के लिए लागू है। कृपया 'ग्राहक घोषणा/ वचनपत्र' अलग से भरें।

^NRE/FCNR accounts and held jointly with resident close relative (relative as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) can be operated only on 'Former or Survivor' basis./ ^एनआरई/एफसीएनआर खाते और निवासी निकट संबंधी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित संबंधी) के साथ संयुक्त रूप से धारित खाते केवल 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' आधार पर परिचालित किए जा सकते हैं।

Non-Resident customers can open Non-Resident Ordinary account(s) (NRO) with residents as co-applicants on a Former or Survivor basis. A Former or Survivor operating mandate permits only the first holder to operate his/her account during his lifetime. On the expiry of the first holder, the other holders i.e. the survivors are permitted to operate the account./ अनिवासी ग्राहक अनिवासी साधारण खाता (खाते) (एनआरओ) 'पहला व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' आधार पर सह-आवेदकों के रूप में निवासियों के साथ खोल सकते हैं। 'पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति' आधार पर परिचालन अधिदेश केवल पहले धारक को उसके जीवनकाल के दौरान उसके खाते को परिचालित करने की अनुमति देता है। पहले धारक की समाप्ति पर, अन्य धारकों यानी उत्तरजीवी व्यक्तियों को खाते का परिचालन करने की अनुमति है।

Customer Declaration - Resident/ ग्राहक घोषणा - निवासियों

I/We confirm having read and understood the account rules/terms and conditions governing the account(s) and the various services including not limited to Debit Card/ATM/Mobile alerts in respect of the account(s), as amended from time to time by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) as made available on www.hsbc.co.in and hereby agree to be bound by the same./ मैं/ हम खाते (खातों) को और खाते (खातों) के संबंध में डेबिट कार्ड/ एटीएम/मोबाइल अलर्ट सहित, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, विभिन्न सेवाओं को नियंत्रित करने वाले हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (एसएसबीसी इंडिया) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित और www.hsbc.co.in पर उपलब्ध कराए गए खाता नियमों/विनियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लेने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं, और एतद्वारा उनसे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

I/We declare that I/we am/are a tax resident/non-resident as per the provisions of Section 6 of the Indian Income-tax Act, 1961. In case there is any change in the tax residential status I/we undertake to promptly inform HSBC India about the same in writing./ मैं/ हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, मैं/ हम कर निवासी/ अनिवासी हूँ/हैं। कर निवासीय स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर मैं/ हम एसएसबीसी इंडिया को लिखित में उसके बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता/देते हूँ/हैं।

I/We hereby confirm having agreed to receive all service communications from HSBC India on an ongoing basis through e-mails sent to the e-mail IDs registered by me/us with HSBC India. The communication may include account related information, certificates, bank notices and account statements./ मैं/ हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम एसएसबीसी इंडिया के पास मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे गए ई-मेल के माध्यम से सतत आधार पर एसएसबीसी इंडिया से सभी सेवा संप्रेषण/संचार प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ/हैं। संप्रेषण/संचार में खाता संबंधी जानकारी, प्रमाण पत्र, बैंक नोटिस और खाता स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं।

I/We declare that the information given herein by me/us is true and correct, which HSBC India is entitled to verify directly or through any third party agent. मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य/सही है, जिसे एसएसबीसी इंडिया सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापित करने का हकदार है।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

I/We also agree that, if any such declarations made by me/us are found to be incorrect, HSBC India is not bound to pay any interest on the account(s) opened by me/us and is entitled to restrict operations in the account and/or terminate the account relationship./ मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि, अगर मेरे द्वारा की गई ऐसी कोई भी घोषणा गलत पाई जाती है, तो एचएसबीसी इंडिया मेरे/हमारे द्वारा खोले गए खाते पर कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं है और परिचालन को प्रतिबंधित करने और/या खाता संबंध समाप्त करने का हकदार है।

I/We will also be liable to comply with the relevant Exchange Control Regulations issued and amended by Reserve Bank of India from time to time and adhere with the provisions under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)./ मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित किए गए संबंधित विदेशी मुद्रा विनियम नियंत्रण विनियमों का पालन करने के लिए दायी हूँ/होंगे और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के प्रावधानों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।

I/We agree and confirm that HSBC India reserves the right to restrict account operation by giving prior notice of 30 days, if account related correspondence sent by HSBC India on the correspondence address recorded with HSBC India, is returned undelivered on two consecutive occasions due to any reasons whatsoever and the said restrictions will be removed once I/we update the correct address on HSBC India's records with address proof, or when I/we confirm that the current correspondence address on HSBC India's records is correct./ मैं/हम सहमत हूँ/हैं और पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि यदि एचएसबीसी इंडिया के पास दर्ज किए गए पत्राचार पते पर एचएसबीसी इंडिया द्वारा खाते से संबंधित पत्राचार किसी भी कारण से दो लगातार अवसरों पर वितरित हुए बिना लौटा दिया जाता है तो एचएसबीसी इंडिया 30 दिनों की पूर्व सूचना देकर खाता संचालन को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उक्त प्रतिबंध तभी हटाया जाएगा जब मैं/हम पते के प्रमाण के साथ एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में सही पते को अपडेट करता/करते हूँ/हैं, या जब मैं / हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में वर्तमान पत्राचार पता सही है।

I/We confirm that the funds withdrawn from the account of a minor accountholder, from time to time, will be utilised only for the benefit of the minor. मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि अव्यस्क के खाते से समय-समय पर निकाले गए धन का उपयोग केवल अव्यस्क के लाभ के लिए किया जाएगा।

For Aadhaar only: / केवल आधार के लिए:

This is to confirm that I/we am/are voluntarily providing a physical copy of my Aadhaar card / e-Aadhaar card in a masked form to HSBC for the purpose of establishing my/our identity / address proof to set up a banking relationship and process instructions in relation to the same. I hereby provide my consent for verification of my Aadhaar to establish its genuineness through such means acceptable as per UIDAI or under any Act or law from time to time. The consent and purpose of collecting Aadhaar have been explained to me and I confirm having understood the same. I acknowledge that the Bank will store the said Aadhaar number in a masked form in their records and use the same for such purposes as may be permitted. I also acknowledge that the Bank has provided me/us with alternate options in terms of identity documents that could be provided in lieu of Aadhaar for setting up a banking relationship./ पुष्टि की जाती है कि मैं/हम एक बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पहचान/पते के प्रमाण के स्थापन हेतु और उसके संबंध में अनुदेशों पर कार्यवाई करने के लिए एचएसबीसी को अपने आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की एक भौतिक प्रति एक छद्मवैशी रूप में स्वेच्छा से प्रदान कर रहा/रहे हूँ/हैं। मैं ऐसे साधनों के माध्यम से अपने आधार की वास्तविकता के स्थापन के लिए एतद्वारा अपनी सहमति प्रदान करता हूँ जो यूआईडीएआई या किसी अधिनियम या कानून के तहत समय-समय पर स्वीकार्य हो। आधार एकत्र करने की सहमति और उद्देश्य मुझे समझाया गया है और मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उसे समझ लिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक उक्त आधार संख्या को अपने रिकॉर्ड में एक छद्मवैशी रूप में संग्रहीत करेगा और ऐसे उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करेगा, जो अनुमत हों। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि बैंक ने मुझे पहचान पत्र के संदर्भ में वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए हैं जो बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए आधार के बदले प्रदान किए जा सकते हैं।

For EEF account held jointly with non-resident close relative(s)/ नॉन-रेजिडेंट नजदीकी रिश्तेदार(रों) के साथ संयुक्त आधार पर खोले गए ईईएफसी अकाउंट: I/We understand that the account held jointly with a non-resident close relative(s) (relative as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956) can be operated only on 'former or survivor' basis./ मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि नॉन-रेजिडेंट नजदीकी रिश्तेदार(रों) के साथ संयुक्त आधार पर खोले गए ईईएफसी अकाउंट (रिश्तेदार को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) के मुताबिक 'फॉर्मर और सरवाइवर' आधार पर ही चलाया जा सकता है।

For the Non-Resident Indian joint accountholder/ नॉन-रेजिडेंट भारतीय संयुक्त खाताधारक के लिए: I/We are aware that I/we as NRI close relative (as per Section 6 of Companies Act, 1956) can become joint accountholder of this Savings Bank/Fixed Deposit/Current Account subject to certain conditions as stated in the Account Rules. I/We hereby undertake that I/we shall not use the proceeds lying in the above account for any transaction in contravention of the provisions of the Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999, Rules/Regulations made thereunder and the related circulars/instructions issued by the Reserve Bank from time to time./ मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि बतौर एनआरआई नजदीकी रिश्तेदार (रिश्तेदार को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है) के मुताबिक इस बचत खाते/सावधि जमा रसीद/चालू खाते में संयुक्त खाताधारक बन सकता है, जो अकाउंट रूल्स के तहत विशेष परिस्थिति में आते हों। मैं/हम इस बात को स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम ऐसे खाते में पड़े पैसे का उपयोग ऐसे किसी भी व्यवहार के लिए नहीं करूँगा/करेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट (फेमा) 1999, के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियम/शर्तों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी इससे जुड़े सक्च्यूलर/निर्देशों के विपरीत हो।

I/ We further undertake that if any such transaction is conducted or attempted to be conducted through the said account in contravention of the FEMA, 1999 or Rules/Regulations made thereunder, I/we shall be held responsible for the same. I/We shall intimate my bank in the event of any change in my/our non-resident/Resident status./ मैं/हम यह भी स्वीकारता हूँ/स्वीकारते हैं कि यदि फेमा, 1999 के प्रावधानों तथा उनके नियम/शर्तों में किए गए किसी प्रकार के उल्लंघन में उपरोक्त खाते में किसी प्रकार का व्यवहार हो गया हो तो इस संबंध में मुझे/हमें जिम्मेदार ठहराया जाए। मैं/हम मेरे/हमारे नॉन-रेजिडेंट/रेजिडेंट स्टेटस में किसी तरह के बदलाव पर बैंक को सूचित करूँगा/करेंगे।

For debit Cardholders/ डेबिट कार्डधारकों के लिए: I/We confirm having read and understood the terms and conditions of usage of the debit card and agree to be bound by the same. I/We undertake to intimate HSBC India and surrender my/our debit card before proceeding overseas on permanent employment and/or emigrating and/or changing my/our nationality./ मैं/हम डेबिट कार्ड के उपयोग के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और उससे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं। विदेश में स्थाई रोजगार के लिए एवं/या विदेश में निवास के लिए एवं/या मेरी/हमारी राष्ट्रीयता परिवर्तन करने पर मैं/हम बैंक को सूचित करने का वचन देते हैं।

For ATM funds transfer/ एटीएम निधि अंतरण के लिए: I/We authorise HSBC India to transfer funds from my/our account through the ATM, subject to HSBC India policies, to third party beneficiaries as specified during operation of the ATM./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को एटीएम के परिचालन के दौरान निर्दिष्ट रूप में किसी अन्य पक्ष लाभार्थी को एचएसबीसी इंडिया की नीतियों के अधीन एटीएम के माध्यम से मेरे/हमारे खाते से निधियां अंतरित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

Mobile alert:/ मोबाइल अलर्ट: I/We wish to avail of the mobile alert services and receive SMS alerts on my/our mobile phone number registered with HSBC India. I/We understand that HSBC India may, at its discretion, discontinue the service completely or partially with intimation to that effect. I/We agree that HSBC India may debit my/our account for Service Charges as per the prevailing tariff from time to time. I/We also understand that the SMS alerts under this service may contain certain personal and/or account information. I/We also understand and acknowledge that while HSBC India will make all reasonable efforts to ensure that my/our personal/account information is kept confidential, the SMS alerts cannot be guaranteed to be completely secure and HSBC India shall have no liability in this regard. I/We undertake to intimate HSBC India immediately in the event of any change in my/our mobile phone number(s)./ बैंक के यहां पंजीकृत मेरे मोबाइल फोन नंबर पर मोबाइल अलर्ट सेवाएं तथा एसएमएस अलर्ट की प्राप्ति सेवा धारण करने की मैं/हम इच्छा रखते हैं। मैं/हम यह समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेक से, सेवाएं पूर्णतः या अंशतः उस प्रभाव की सूचना के साथ अनियमित कर सकता है। मैं/हम सहमत हूँ कि सेवा शुल्क के लिए बैंक मेरा/हमारा खाता समय समय पर प्रचलित दर से डेबिट कर सकता है। मैं/हम यह भी समझते हैं कि इस सुविधा के अंतर्गत एसएमएस अलर्ट में निश्चित व्यक्तिगत तथा/या खाते की सूचना रहेगी। मैं/हम यह भी समझते हैं एवं स्वीकार करते हैं कि बैंक व्यक्तिगत प्रयास करेगा कि मेरी/हमारी व्यक्तिगत सूचना गोपनीय रहे, एसएमएस अलर्ट की पूर्णतः सुरक्षित रहने की गारन्टी नहीं है तथा इस सम्बंध में बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। मेरे/हमारे मोबाइल फोन नंबर में किसी परिवर्तन की घटना में बैंक को तुरंत सूचना करने का मैं/हम वचन देते हैं।

I/We understand and acknowledge that: / मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं:

1. HSBC India does not provide any tax advice and service to its customers./ 1. एचएसबीसी इंडिया अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कर-सलाह नहीं देते हैं।
2. I/We understand it is my/our responsibility to comply with tax laws and accordingly I/we would comply with the worldwide tax reporting and filing obligation as applicable to me/us./ 2. मैं/हम यह मानता/मानते हूँ/हैं कि कर-कानून का पालन करने और तदनुसार आय-कर विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी है। मैं/हम वर्ल्डवाइड टैक्स रिपोर्टिंग का पालन करूँगा/करेंगे तथा तदनुसार लागू एवं प्रचलित नियमों के अनुसार विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी उठाऊंगा/उठाऊंगे।
3. I/We am/are obliged to provide any information requested by HSBC India, that is required by law./ 3. मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को, कानून द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए उपलब्ध करवाऊंगा/करवाएंगे।
4. I/We understand that where a referral by HSBC India is made to an external organisation for specific tax advice for me/us, the contract for such tax advice is between me/us and the third party, and any advice provided is the responsibility of such third party, and not HSBC India./ 4. मैं/हम मानता हूँ/मानते हैं कि एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी बाह्य संस्था से मेरी/हमारी विशिष्ट कर-सलाह के बारे में जानकारी मांगने पर, वह अनुबंध मेरे/हमारे तथा तृतीय पक्ष के बीच होगा, तथा ऐसी किसी भी

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

प्रकार की सलाह तृतीय पक्ष की होगी, न कि एचएसबीसी इंडिया की।

Consent clause/ / सम्मति शर्त:

1. I/We, understand that as a pre-condition, relating to grant of the loan/advances/other non-fund based credit facilities to me/us, HSBC India, requires my/our consent for the disclosure by HSBC India of, information and data relating to me/us, of the credit facility availed of/to be availed, by me/us, obligations assumed, by me/us, in relation thereto and default, if any, committed by me/us, in discharge thereof./ 1. मैं/हम बैंक को, बैंक की नीति अनुसार व एटीएम के संचालन के अनुसार तीसरे पक्ष को मेरे/अपने एटीएम से पैसा हस्तांतरण के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं कि पूर्व-शर्त के अनुसार, मुझे/हमें दिए गए/दिए जाने वाले तथा सभी तरह के कर्ज/अग्रिम/अन्य नॉन-फंड-बेस्ड क्रेडिट फेसिलिटीज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है व इन्हें बैंक ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारा बताने के लिए हमारी सम्मति है तथा अपनी देनदारी चुका न पाने की स्थिति में हम इनकी भरपायी का आश्वासन देते हैं।
2. Accordingly, I/we, hereby agree and give consent for the disclosure by HSBC India of all or any such:/ 2. तदनुसार, मैं/हम यह मानता/मानती/मानते तथा सम्मति देता/देती/देते हूँ/हैं कि बैंक सभी को या किसी को दे सकता है:
 - a) information and data relating to me/us; / a) मेरे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े;
 - b) the information or data relating to any credit facility availed of/to be availed, by me/us; and/ b) मेरे/हमारे द्वारा धारण की गई/धारण की जानेवाली कोई क्रेडिट सुविधा से सम्बन्धित सूचना एवं डाटा।
 - c) default, if any, committed by me/us, in discharge of my/our such obligation; as HSBC India may deem appropriate and necessary, to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) and/or any other agency authorised in this behalf by RBI./ c) डिफॉल्ट (अक्षमता), यदि हो तो, तथा मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त में, जिसे बैंक ने निर्धारित किया हो, जानकारी को किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल), और/अथवा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को।
3. I/We, declare that the information and data furnished by me/us to HSBC India are true and correct./ 3. मैं/हम यह घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बैंक को दी गई जानकारी व आंकड़े सत्य हैं।
4. I/We, undertake that:/ 4. मैं/हम यह स्वीकार करता/करती/करते हूँ/हैं कि:
 - a) the CIBIL and/or any other agency so authorised may use, process the said information and data disclosed by HSBC India; and/ a) सीआईबीआईएल और/अथवा अन्य एजेंसी जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहे तो बैंक द्वारा दी गई इस जानकारी और आंकड़ों का इस्तेमाल, व प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
 - b) the CIBIL and/or any other agency so authorised may furnish for consideration, the processed information and data of products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit grantors, as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf./ b) सीआईबीआईएल और/अथवा अन्य एजेंसियां, जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहे तो प्रोसेस हुई इस जानकारी और आंकड़ों और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए बैंक/फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस और अन्य उधारी देने वालों को कंसीडरेशन के लिए दे सकते हैं।
5. I/We acknowledge that HSBC India remains entitled to assign any activities to any third party agencies/service providers at its sole discretion. I/We further acknowledge the right of HSBC India to provide details of my/our account and sharing or transfer of information which will be on a confidential basis to HSBC Group offices or other third party agencies/service providers, whether located in India or overseas including but not limited for the purpose of availing support services of any nature by HSBC India. HSBC India also may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request or direction of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me/us./

मैं/हम एतद्वारा स्वीकृति देते हैं कि बैंक किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी तृतीय पक्ष एजेंसी/सेवा प्रदाताओं को अपने पूर्ण विवेक से देने का हकदार होगा। मेरा/हमारा खाता एवं सूचना को बांटने या हस्तांतरित करने के एचएसबीसी, इण्डिया के अधिकारों को मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं, जो एचएसबीसी समूह कार्यालयों या अन्य तृतीय पक्ष एजेंसीयों सेवा प्रदाताओं को गोपनीयता के आधार पर दिया जायेगा, चाहे वे एचएसबीसी, इण्डिया द्वारा किसी भी प्रकृति की सपोर्ट सेवाओं को धारण करने के उद्देश्य से भारत में या विदेश में स्थित हों तथा सूचना प्रकट कर सकेगा, यदि किसी विधि, नियम या विनियम द्वारा चाही गई हो या अनुमति हो या किसी सार्वजनिक या विनियामक प्राधिकरण द्वारा चाही गई हो, या यदि उक्त प्रकटीकरण किसी धोखाधड़ी को रोकने के लिये चाहा गया हो, मेरे/हमारे अधिक विनिर्दिष्ट अधिकारिता के बिना दिया जा सकेगा।

CRS, FATCA and CKYCR Declaration/Consent clause/ सीआरएस, फटका (FATCA) और सीकेवाईसीआर घोषणा/सहमति खंड:

I have read and understood the information requirements and the Terms and Conditions mentioned in this Form (and hereby confirm that the information provided by me on this Form is true, correct and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/We hereby agree and confirm to inform HSBC India for any modification to this information promptly. I further agree to abide by the provisions relating to 'Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) on Automatic Exchange of Information (AEOI) provided in Rules 114F to 114H of the Income Tax Rules, 1962'. मैं इस फॉर्म में उल्लिखित जानकारी की आवश्यकताओं और नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इस बात की पुष्टि करता हूँ कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। मैं/हम इस जानकारी में किसी संशोधन को एचएसबीसी इंडिया को तुरंत सूचित करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इसकी पुष्टि करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम विदेशी मुद्रा खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के नियम 114F में 114H में उपबंधित सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (EOI) के सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (CRS) का पालन करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।

I/We authorise HSBC India to update its records basis the above information. I/We also authorise HSBC India to share the given information provided by me/us with the any statutory/regulatory authorities, as appropriate or HSBC group entities./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को उपर्युक्त जानकारी के आधार पर मेरे/हमारे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को किसी भी वैधानिक/विनियामक प्राधिकरण या एचएसबीसी समूह की संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी को उचित रूप में साझा करने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं।

I/We understand that the details provided in the form will be reconciled with HSBC India's existing records and any discrepancy thereof will be duly highlighted to me/us for further rectification/updation of records./ मैं/हम यह समझता/समझते हूँ/हैं कि फॉर्म में प्रदान किए गए विवरणों को आपके मौजूदा रिकॉर्ड के साथ समेट दिया जाएगा और रिकॉर्ड के आगे सुधार/अपडेशन के लिए किसी भी विसंगति के बारे में मुझे/हमें सूचित किया जाएगा।

I/We acknowledge that the information contained in this form and information regarding the account holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the account holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम स्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि इस फॉर्म में निहित जानकारी और खाताधारक या किसी भी रिपोर्ट योग्य खाते (खातों) के बारे में जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार या देशों/क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं।

I/We certify that I/we am/are the account holder (or am/are authorised to sign for the account holder) of all the account(s) to which this form relates. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम खाताधारक हूँ/हैं (या खाताधारक के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं) जो यह फॉर्म से संबंधित है। यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी पाई जाती है, तो मैं/हम जानता/जानते हूँ/हैं कि मैं/हम इसके लिए उत्तरदायी हो सकता/सकते हूँ/हैं।

I/We hereby consent for receiving information from Central KYC Registry through SMS/E-mail on the above mentioned registered number/e-mail address./ मैं/हम उपर्युक्त पंजीकृत नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देता/देते हूँ/हैं।

I/We certify that where I/we have provided information regarding any other person(s) (such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I/we will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I/we have provided such information to HSBC and that such information may be provided to the tax authorities of the country/Jurisdiction in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/Jurisdiction or countries/Jurisdiction in which the person(s) may be tax resident(s) pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि जहाँ मैंने/हमने किसी अन्य व्यक्ति (जैसे कि एक नियंत्रक व्यक्ति या रिपोर्ट करने योग्य अन्य व्यक्ति जिससे यह फॉर्म संबंधित है) के बारे में जानकारी प्रदान की है, जो कि मैं/हम इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर उन व्यक्तियों को सूचित करूंगा/करेंगे कि मैंने/हमने एचएसबीसी को इस तरह की जानकारी प्रदान की है और यह जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

या देशों / क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं।

I/We undertake to advise HSBC India within 30 days of any change in my/circumstances which affects the tax residency status or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide HSBC India with a suitably updated self-certification and declaration within 90 days of such change in circumstances./ मैं अपनी परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी इंडिया को सूचित करने का वचन देता/देते हूँ/हैं, जो कर निवासी की स्थिति को प्रभावित करता है या इसमें निहित जानकारी को गलत बनाता है, और परिस्थितियों में इस तरह के बदलाव के 90 दिन के भीतर एचएसबीसी इंडिया को उपयुक्त रूप से अद्यतन स्व-प्रमाणन और घोषणा प्रदान करूंगा/करेंगे।

E-mail Statement/ ईमेल स्टेटमेंट:

I/We may opt to receive the account statement on e-mail pursuant to which HSBC India will send the Statement in an electronic format to my e-mail ID specified on HSBC India's records. I/We agree, confirm and understand that in the event of opting to so receive statements vide e-mail, no physical statement will be sent to me/us by HSBC India. I/We shall notify HSBC India of any change in my/our e-mail ID. HSBC India will be deemed to have delivered the statement to me/us upon HSBC India not receiving a delivery failure notification. Should I/We experience any difficulty in accessing the electronically delivered statement, I/we shall promptly advise HSBC India for delivery through alternate means. Failure to advise HSBC India of such difficulty within 30 days after receiving the statement shall serve as an affirmation regarding the acceptance of the statement by me/us. I/We confirm(s) that I/we is/are aware of all security risks involved in receiving the electronically delivered statement. I/We agree(s) that I/we shall not hold HSBC India in any way responsible for the same. I/We agree that the statement will not be generated if no transactions are effected during the stipulated period of the statement cycle. I/We agree that duplicate statements of past transactions are issued against payment of charges as per HSBC India's current Tariff. In case of receiving e-statements through HSBC Internet Banking, I/We agree to be bound by the terms and conditions mentioned on the website www.hsbc.co.in.

I/We also undertake to indemnify HSBC India for any loss (including but not limited to tax liability, interest and penalty) suffered by HSBC India as a result of either relying upon this declaration or due to my/our delay/default in confirming the change, if any, of the declarations mentioned above. This indemnity shall survive the termination of relationships held by me/us with HSBC India./ मैं/हम ई-मेल पर खाता स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके अनुसरण में एचएसबीसी इंडिया द्वारा एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड में दर्ज मेरी/हमारी ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में स्टेटमेंट भेजा जाएगा। मैं/हम सहमत हूँ/हैं, पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और समझता/समझते हूँ/हैं कि ई-मेल के जरिए स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा। मैं/हम अपने/हमारे ई-मेल आईडी में किसी भी बदलाव के एचएसबीसी इंडिया को सूचित करूंगा/करेंगे। एचएसबीसी को डिलीवरी विफल होने की सूचना नहीं मिलने पर एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें स्टेटमेंट दिया गया माना जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए स्टेटमेंट को देखने में मुझे/हमें कोई कठिनाई महसूस होती है, तो मैं/हम तुरंत वैकल्पिक साधनों के माध्यम से डिलीवरी के लिए एचएसबीसी को सूचित करेंगे। स्टेटमेंट प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी को इस तरह की कठिनाई से अवगत कराने में विफलता मेरे/हमारे द्वारा स्टेटमेंट की स्वीकृति के संबंध में एक पुष्टि के रूप में काम करेगी। मैं/हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित स्टेटमेंट प्राप्त करने में निहित सभी सुरक्षा जोखिमों से अवगत हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मैं/हम एचएसबीसी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे। मैं/हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि यदि स्टेटमेंट चक्र की निर्धारित अवधि के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि पिछले लेनदेन के डुब्लिकेट स्टेटमेंट बैंक के वर्तमान प्रशुल्क के अनुसार शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाते हैं। एचएसबीसी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ई-स्टेटमेंट प्राप्त करने के मामले में, मैं/हम वेबसाइट www.hsbc.co.in पर उल्लिखित नियमों और शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम या तो इस घोषणा पर निर्भर होने के परिणामस्वरूप या ऊपर वर्णित घोषणाओं में किसी परिवर्तन, यदि कोई हो, की पुष्टि करने में मेरी/हमारी ओर से विलम्ब/चूक के कारण एचएसबीसी इंडिया को हुए किसी भी नुकसान (कर देयता, ब्याज और जुर्माना सहित किंतु इन्हें तक सीमित नहीं है) के लिए एचएसबीसी इंडिया को क्षतिपूर्ति करने का भी वचन देता/देते हूँ/हैं। यह क्षतिपूर्ति एचएसबीसी इंडिया के साथ मेरे/हमारे द्वारा धारित संबंधों के समापन पर भी विद्यमान रहेगी।

Customer Declaration - Non-Resident/ ग्राहक घोषणा - गैर-निवासियों के लिए

I/We confirm having read and understood the account rules/terms and conditions governing the account(s) and the various services including not limited to Debit Card/ATM/Mobile alerts in respect of the account(s) as amended from time to time by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) as made available on www.hsbc.co.in and hereby agree to be bound by the same./ मैं/हम खाते (खातों) को और खाते (खातों) के संबंध में डेबिट कार्ड/एटीएम/मोबाइल अलर्ट सहित, किंतु इन्हें तक सीमित नहीं, विभिन्न सेवाओं को नियंत्रित करने वाले हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित और www.hsbc.co.in पर उपलब्ध कराए गए खाता नियमों/विनियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लेने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं, और एतद्वारा उनसे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

I/We declare that I/we am/are a tax resident/non-resident as per the provisions of Section 6 of the Indian Income-tax Act, 1961. In case there is any change in the tax residential status I/we undertake to promptly inform HSBC India about the same in writing./ मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, मैं/हम कर निवासी/अनिवासी हूँ/हैं। कर निवासीय स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को लिखित में उसके बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता/देते हूँ/हैं।

I/We hereby confirm having agreed to receive all service communications from HSBC India on an ongoing basis through e-mails sent to the e-mail IDs registered by me/us with HSBC India. The communication may include account related information, certificates, bank notices and account statements./ मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम एचएसबीसी इंडिया के पास मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे गए ई-मेल के माध्यम से सतत आधार पर एचएसबीसी इंडिया से सभी सेवा संप्रेषण/संचार प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ/हैं। संप्रेषण/संचार में खाता संबंधी जानकारी, प्रमाण पत्र, बैंक नोटिस और खाता स्टेटमेंट शामिल हो सकते हैं।

I/We confirm that the Non-Resident accounts (NRE/NRO and FCNR) opened with the Bank shall be operated and maintained for the purpose of conducting bona fide transactions in Rupees and permissible currencies (as may be designated by Reserve Bank from time to time) in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 ('Act') and the rules and regulations made thereunder and that such opening, operation and maintenance shall not in any manner contravene or violate the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder./ मैं/हम मानते हैं कि गैर-निवासियों (एनआरई/एनआरओ और एफसीएनआर) एकाउंट्स, जिन्हें बैंक में खोला गया है, उन्हें रुपयों के वास्तविक लेन-देन व अनुमति दी गई करेंसीज (रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुसार) फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट, 1999 ('ऐक्ट') के नियम अनुसार चलाया एवं चालू रखा जाएगा, व इस तरह की ओपनिंग, ऑपरेशन और मॉन्टेंस का उल्लंघन किसी भी रूप में ऐक्ट और नियमों में हुए बदलाव में उल्लंघन नहीं करूंगा/करेंगे।

I/We confirm that, upon opening and operating my/our NRO account, I/we shall not make available to any person resident in India, foreign currency against reimbursement in Rupees or in any other manner in India./ मैं/हम मानते हैं कि मेरे/हमारे एनआरओ एकाउंट के खोले जाने और चलाने पर मैं/हम भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को, भारत में रुपयों या किसी भी रूप में फॉरेन करेंसी का भुगतान नहीं करूंगा/करेंगे।

I/We declare that the information given herein by me/us is true and correct, which HSBC India is entitled to verify directly or through any third party agent./ मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य/सही है, जिसे एचएसबीसी इंडिया सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापित करने का हकदार है।

I/We also agree that, if any such declarations made by me/us are found to be incorrect, HSBC India is not bound to pay any interest on the account(s) opened by me/us and is entitled to restrict operations in the account and/or terminate the account relationship./ मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि, अगर मेरे द्वारा की गई ऐसी कोई भी घोषणा गलत पाई जाती है, तो एचएसबीसी इंडिया मेरे/हमारे द्वारा खोले गए खाते पर कोई ब्याज देने के लिए बाध्य नहीं है और परिचालन को प्रतिबंधित करने और/या खाता संबंध समाप्त करने का हकदार है।

I/We will also be liable to comply with the relevant Exchange Control Regulations issued and amended by Reserve Bank of India from time to time and adhere with the provisions under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA)./ मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित किए गए संबंधित विदेशी मुद्रा विनियम नियंत्रण विनियमों का पालन करने के लिए दायी हूंगा/होंगे और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के प्रावधानों का अनुपालन करूंगा/करेंगे।

I/We agree and confirm that HSBC India reserves the right to restrict account operation by giving prior notice of 30 days, if account related correspondence sent by HSBC India on the correspondence address recorded with HSBC India, is returned undelivered on two consecutive occasions due to any reasons whatsoever and the said restrictions will be removed once I/we update the correct address on HSBC India's records with address proof, or when I/we confirm that the current correspondence address on HSBC India's records is correct./ मैं/हम सहमत हूँ/हैं और पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि यदि एचएसबीसी इंडिया के पास दर्ज

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

किए गए पत्राचार पते पर एचएसबीसी इंडिया द्वारा खाते से संबंधित पत्राचार किसी भी कारण से दो लगातार अवसरों पर वितरित हुए बिना लौटा दिया जाता है तो एचएसबीसी इंडिया 30 दिनों की पूर्ण सूचना देकर खाता संचालन को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उक्त प्रतिबंध तभी हटाया जाएगा जब मैं/हम पते के प्रमाण के साथ एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में सही पते को अपडेट करता/करते हूँ/हैं, या जब मैं/हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड्स में वर्तमान पत्राचार पता सही है।

I/We understand that all NRI deposits and lending there against are under FEMA and are subject to the laws of India, as amended from time to time, and are consequently subject to the sovereign risk arising there from. I/We agree to abide by the provisions of FEMA concerning the NRE/NRO/FCNR(B) accounts scheme./ मैं/हम स्वीकार करता/करती/करते हूँ/हैं कि सभी एनआरआई डिपॉजिट्स और उन पर किसी तरह का ऋण लेना फेमा के अंतर्गत होगा, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है तथा ये परिणाम स्वरूप होने वाले खतरों के तहत होंगे। मैं/हम स्वीकार करता/करती/करते हूँ/हैं कि मैं/हम एनआरआई/एनआरओ/एफसीएनआर(बी) खातों के संचालन के लिए फेमा के प्रावधानों का पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे।

I/We understand and acknowledge that deposits under this programme are with the Bank's branches in India and that such deposits shall be payable only at the branch in India where the deposit is placed and that there is no right of recourse against the Head office of the Bank in Hong Kong or any other office of any HSBC Group entity worldwide./ मैं/हम यह मानता/मानती/मानते हूँ/हूँ तथा स्वीकार करता/करती/करते हूँ/हैं कि इस योजना के तहत डिपॉजिट्स बैंक की भारत में स्थित शाखा के पास हैं तथा इनका भुगतान भारत की उसी शाखा द्वारा किया जाएगा, जहां डिपॉजिट रखा गया है और बैंक के मुख्यालय हांगकांग या किसी विश्व भर में एचएसबीसी समूह के कार्यालय को भुगतान नहीं करने का अधिकार होगा।

I/We confirm that the funds withdrawn from the account of a minor account holder, from time to time, will be utilised only for the benefit of the minor./ मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि अव्यस्क खाताधारक से समय-समय पर निकाले गए धन का उपयोग केवल अव्यस्क के लाभ के लिए किया जाएगा।

I/We understand and acknowledge that/ मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं:

- Changes in laws and rules in India governing NRI deposits may affect the liability of the Bank to repay any depositor outside India/ एनआरआई जमाओं को अभिशासित करने वाले भारत में कानूनों और नियमों में परिवर्तन भारत के बाहर किसी भी जमाकर्ता को चुकाने के लिए एचएसबीसी इंडिया के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।
- Deposits/investments made with non-UK members of the group do not benefit from the protection provided under the UK Financial Services and Markets Act 2000, including the UK Financial Services Compensation Scheme/ समूह के गैर-यूके सदस्यों के साथ किए गए जमा/ निवेश को यूके वित्तीय सेवा प्रतिकार योजना सहित यूके फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट्स एक्ट 2000 के तहत प्रदान किए गए संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- NRI deposits with the Bank are not insured by Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) of the USA, nor by any other insurance company or corporation outside India/ बैंक के पास एनआरआई जमाधारियों न तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) द्वारा और न ही भारत के बाहर किसी अन्य बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत होती हैं।
- Under current US Tax laws, US citizens and residents are subject to tax on their worldwide income (please consult your tax advisor regarding the tax treatment of these deposits in USA, or any other country/Jurisdiction where you are subject to tax, including your country/Jurisdiction of residence/nationality)/ वर्तमान अमेरिकी कर कानूनों के तहत, अमेरिकी नागरिक और निवासी अपनी विश्वव्यापी आय पर कर के अधीन हैं (कृपया अपने निवास देश और राष्ट्रियता सहित यूएसए या किसी अन्य देश जहां आप कर के अधीन हैं, में इन जमाओं के कर निरूपण के बारे में अपने कर सलाहकार से परामर्श करें)।

I/We agree and accept that the Bank may need to share or transfer data or information about the customer(s) to any third party service provider, whether located overseas or in India, who provides outsourced services to the Bank in connection with the operation of the Bank's business, in accordance with the applicable guidelines of the Reserve Bank of India. Any such sharing or transfer of information will be done strictly on a confidential basis and the Bank will endeavour to maintain strict confidentiality of such information. However, the Bank or such third party service providers, whether located in India or overseas, may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me/us./ मैं/हम सहमत हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि बैंक को किसी भी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता, चाहे वह विदेशों में या भारत में स्थित हो, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार एचएसबीसी इंडिया के व्यवसाय के परिचालन के संबंध में बैंक को आउटसोर्स सेवाएं प्रदान करता है, के साथ डेटा या जानकारी (ग्राहक) को साझा करने या ट्रांसफर करने की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह की कोई भी जानकारी गोपनीय तरीके से साझा या ट्रांसफर की जाएगी और बैंक ऐसी सूचनाओं की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास करेगा। हालांकि, बैंक या ऐसे तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता, जो भारत में या विदेशों में स्थित हैं, यदि किसी कानून, नियम या विनियमन या किसी सार्वजनिक या नियामक प्राधिकरण के अनुरोध पर या यदि इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता हो अथवा यदि ऐसा प्रकटन धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से चाहिए तो मुझे/हमसे किसी अतिरिक्त सहमति या प्राधिकरण के बिना जानकारी को प्रकट कर सकते हैं।

I/We hereby undertake to intimate the Bank about any change in my residential status i.e., upon my/our return to India for permanent settlement, for taking up employment, or for carrying on business or vocation or for any other purpose indicating my/our intention to stay in India for an uncertain period, immediately on arrival in India./ मैं/हम स्थायी निवास के लिए, या कोई नियोजन स्वीकार करने के लिए या कोई कारोबार या व्यवसाय शुरू करने के लिए या किसी अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने का इरादा सूचित करते हुए किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत लौटने पर अपने आवासीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को भारत में आगमन के तुरंत बाद सूचित करने का एतद्वारा वचन देता/देते हूँ/हैं।

I/We further declare that the information given herein by me/us is true and correct and the Bank is entitled to verify the same either directly or through any third party agent./ मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है और बैंक सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से उसे सत्यापित करने का हकदार है।

I/We confirm having received, read and understood the Bank's account rules, and hereby agree to be bound by the terms and conditions governing the account(s)./ मैं/हम बैंक के खाता नियमों को प्राप्त करने, पढ़ने और समझने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और इसके बाद खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

I/We understand that the NRE account(s)/NRE fixed deposits/FCNR(B) deposits held jointly with resident close relative (as defined in Section 6 of the companies Act, 1956) will be operated on 'former or survivor basis'./ मैं/हम समझता/समझते हूँ/हैं कि निवासी निकट संबंधी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित के अनुसार) के साथ संयुक्त रूप से धारित एनआरआई खाता/ एनआरआई सावधि जमा/ एफसीएनआर (बी) जमा खाते 'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी व्यक्ति के आधार' पर परिचालित किए जाएंगे।

For Aadhaar only/ केवल आधार के लिए:

This is to confirm that I/we am/are voluntarily providing a physical copy of my Aadhaar card / e-Aadhaar card in a masked form to HSBC for the purpose of establishing my/our identity / address proof to set up a banking relationship and process instructions in relation to the same. I hereby provide my consent for verification of my Aadhaar to establish its genuineness through such means acceptable as per UIDAI or under any Act or law from time to time. The consent and purpose of collecting Aadhaar have been explained to me and I confirm having understood the same. I acknowledge that the Bank will store the said Aadhaar number in a masked form in their records and use the same for such purposes as may be permitted. I also acknowledge that the Bank has provided me/us with alternate options in terms of identity documents that could be provided in lieu of Aadhaar for setting up a banking relationship./ पुष्टि की जाती है कि मैं/हम एक बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पहचान/पते के प्रमाण के सत्यापन हेतु और उसके संबंध में अनुदेशों पर कार्रवाई करने के लिए एचएसबीसी को अपने आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की एक भौतिक प्रति एक छद्मवैशेषी रूप में स्वेच्छा से प्रदान कर रहा/रहे हूँ/हैं। मैं ऐसे साधनों के माध्यम से अपने आधार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए एतद्वारा अपनी सहमति प्रदान करता हूँ जो यूआईडीईएआई या किसी अधिनियम या कानून के तहत समय-समय पर स्वीकार्य हो। आधार एकत्र करने की सहमति और उद्देश्य मुझे समझाया गया है और मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उसे समझ लिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक उक्त आधार संख्या को अपने रिकॉर्ड में एक छद्मवैशेषी रूप में संग्रहीत करेगा और ऐसे उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करेगा, जो अनुमत हो। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि बैंक ने मुझे पहचान पत्र के संदर्भ में वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए हैं जो बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए आधार के बदले प्रदान किए जा सकते हैं।

Non-Resident Indian (NRI) deposits are under the Reserve Bank of India programme for Non-Resident Indians and are governed by the rules in effect from time to time relating to such programmes, are subject to the sovereign risk arising from and governed by the laws of, or any changes to the laws of India./ अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाधारियों अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्रम के तहत होते हैं और समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रमों से संबंधित नियमों द्वारा शासित होते हैं, भारत के कानूनों या उनमें परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संप्रभु जोखिम के अधीन होते हैं और इनके द्वारा शासित होते हैं।

NRI deposits/accounts are held with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) and are not insured by any insurance company or corporation outside India and are payable only at the branch of the Bank in India where the deposit is made./ एनआरआई जमाधारियों/खाते हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) के पास रखे जाते हैं और भारत के बाहर किसी बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत नहीं किये जाते हैं और केवल भारत में बैंक की उस शाखा में देय होते हैं जहाँ जमा किया जाता है।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Non-Resident (NR) accounts and Non-Resident Indian (NRI) services are offered by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India) under the Reserve Bank of India programme for Non-Resident Indians and are governed by the extant rules and regulations and the applicable laws of India, relating to such programmes, and are subject to the sovereign risk arising from any changes to such laws/rules/regulations./ अनिवासी भारतीय (एनआर) खाते और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सेवाएं अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कार्यक्रम के तहत हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) द्वारा प्रदान की जाती हैं और ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित वर्तमान नियम और कानूनों और भारत के लागू कानूनों द्वारा नियंत्रित हैं, और ऐसे कानूनों/नियमों/विनियमों में किसी भी बदलाव से उत्पन्न होने वाले संप्रभु जोखिम के अधीन हैं।

Approved for issue in the UK by HSBC Bank plc. 8 Canada Square, London E14 5HQ. Deposits/investments made with non-UK members of the group do not benefit from the protection provided under the UK Financial Services and Markets Act 2000, including the UK Financial Services Compensation Scheme./ यूके में एचएसबीसी बैंक पीएलसी, 8 कनाडा स्क्वायर, लंदन E14 5HQ द्वारा यूके में जारी करने के लिए अनुमोदित, समूह के गैर-यूके सदस्यों के पास किए गए जमा/निवेश यूके वित्तीय सेवाएं प्रतिकर योजना सहित यूके वित्तीय सेवाएं और बाजार अधिनियम, 2000 के तहत प्राप्त संरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा।

NR deposits are offered under the Reserve Bank of India programme for Non-Resident Indians and are governed by the rules in effect from time to time relating to such programmes, are subject to the sovereign risk arising from, and governed by the laws of, or any changes to the laws of India. NR deposits with the Bank in India are not insured by Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) of the USA, nor by any other insurance company or corporation outside India and are payable only at the branch in India where the deposit is made. Under current US tax laws, US citizens and residents are subject to tax on their worldwide income. You should consult your tax advisor for the US treatment of income from these deposits./ अनिवासी भारतीयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्रम के तहत अनिवासी जमाधारियों की पेशकश की जाती है और समय-समय पर इस तरह के कार्यक्रमों से संबंधित नियमों द्वारा शासित होते हैं, भारत के कानूनों या उनमें परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संप्रभु जोखिम के अधीन होते हैं और इनके द्वारा शासित होते हैं। भारत में बैंकों के पास अनिवासी जमाधारियों यूएसए के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) द्वारा और न ही भारत के बाहर किसी अन्य बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत नहीं होती हैं और केवल भारत में उस शाखा में देय होती हैं जहाँ जमा किया जाता है। मौजूदा अमेरिकी कर कानूनों के तहत, अमेरिकी नागरिक और निवासी अपनी विश्वव्यापी आय पर कर के अधीन हैं। आपको इन जमाओं से होने वाली आय के अमेरिकी निरूपण के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

NRI accounts and services are offered by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India). HSBC India is a branch of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited has a Representative Office in the UAE licenced by the Central Bank of the United Arab Emirates./ हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) द्वारा एनआरआई खातों और सेवाओं की पेशकश की जाती है। एचएसबीसी इंडिया, हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक शाखा है। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त यूईई में एक प्रतिनिधि कार्यालय है।

Deposits/accounts held with HSBC India are not protected deposit and are not protected by Deposit Protection Scheme in Hong Kong./ एचएसबीसी इंडिया के पास धारित जमाएं/खाते संरक्षित जमा नहीं हैं और हांगकांग में जमा संरक्षण योजना द्वारा संरक्षित नहीं हैं।

For Residents within Kingdom of Bahrain, we remind you that deposits made with HSBC India do not benefit from the protection provided under the Deposit Protection Scheme established by the Central Bank of Bahrain regulation concerning the establishment of a Deposit Protection Scheme and a Deposit Protection Board./ किंगडम ऑफ बहरीन के निवासियों के लिए, हम आपको याद दिलाते हैं कि एचएसबीसी इंडिया के पास की गई जमाओं को जमा संरक्षण योजना और जमा संरक्षण बोर्ड की स्थापना से संबंधित बहरीन के केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित जमा संरक्षण योजना के तहत उपलब्ध संरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

NRI services are provided by HSBC India. HSBC India is the branch of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and HSBC India is not regulated in Canada. NR deposits with the Bank in India are not insured by Canadian Deposit Insurance Corporation (CDIC), nor by any other insurance company or corporation outside India and are payable only at the branch of the Bank in India where the deposit is made. You should consult your tax advisor for the Canada treatment of income from these deposits./ एनआरआई सेवाएं एचएसबीसी इंडिया द्वारा प्रदान की जाती हैं। एचएसबीसी इंडिया हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शाखा है और एचएसबीसी इंडिया कनाडा में विनियमित नहीं है। भारत में बैंक के पास अनिवासी जमाधारियों न तो कनाडाई डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (सीडीआईसी) द्वारा और न ही भारत के बाहर किसी अन्य बीमा कंपनी या निगम द्वारा बीमाकृत होती हैं और केवल भारत में बैंक की उस शाखा में देय होती है जहाँ जमा किया जाता है। इन जमाओं से होने वाली आय के कनाडा निरूपण के लिए आपको अपने कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।

Deposits and accounts held with HSBC India are not protected by the Australian Financial Claims Scheme./ एचएसबीसी इंडिया के पास धारित जमा और खाते ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय दावा योजना द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं।

For debit Cardholders/ डेबिट कार्डधारकों के लिए: I/We confirm having read and understood the terms and conditions of usage of the debit card and agree to be bound by the same./ मैं/हम डेबिट कार्ड के उपयोग के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और उससे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

For ATM funds transfer/ एटीएम निधि अंतरण के लिए: I/We authorise the Bank to transfer funds from my/our account through the ATM, subject to the Bank's policies, to the third party beneficiaries as specified during operation of the ATM./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को एटीएम के परिचालन के दौरान निर्दिष्ट रूप में किसी अन्य पक्ष लाभार्थी को एचएसबीसी इंडिया की नीतियों के अधीन एटीएम के माध्यम से मेरे/हमारे खाते से निधियां अंतरित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

I/We understand and acknowledge that/ मैं/हम समझता/ समझते हूँ/हैं और स्वीकार करता/करते हूँ/हैं:

- HSBC India does not provide any tax advice to its customers/एचएसबीसी इंडिया अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कर-सलाह नहीं देते हैं।
- I/We understand it is my/our responsibility to comply with tax laws and accordingly I/we would comply with the worldwide tax reporting and filing obligation as applicable to me/us./ मैं/हम यह मानता/मानते हूँ/हैं कि कर-कानून का पालन करने और तदनुसार आय-कर विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी है। मैं/हम वर्ल्डवाइड टैक्स रिपोर्टिंग का पालन करूंगा/करेंगे तथा तदनुसार लागू एवं प्रचलित नियमों के अनुसार विवरणी जमा करने की जिम्मेदारी उठाऊंगा/उठाऊंगे।
- I/We am/are obliged to provide any information requested by HSBC India, that is required by law./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को, कानून द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए उपलब्ध करवाऊंगा/करवाएंगे।
- I/We understand that where a referral by HSBC India is made to an external organisation for specific tax advice for me/us, the contract for such tax advice is between me/us and the third party, and any advice provided is the responsibility of such third party, and not HSBC India./ मैं/हम मानता हूँ/मानते हैं कि एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी बाह्य संस्था से मेरी/हमारी विशिष्ट कर-सलाह के बारे में जानकारी मांगने पर, वह अनुबंध मेरे/हमारे तथा तृतीय पक्ष के बीच होगा, तथा ऐसी किसी भी प्रकार की सलाह तृतीय पक्ष की होगी, न कि एचएसबीसी इंडिया की।

Consent clause/ सम्मति शर्त:

1. I/We, understand that as a pre-condition, relating to grant of the loan/advances/other non-fund based credit facilities to me/us, HSBC India, requires my/our consent for the disclosure by HSBC India of, information and data relating to me/us, of the credit facility availed of/to be availed, by me/us, obligations assumed, by me/us, in relation thereto and default, if any, committed by me/us, in discharge thereof./ 1. मैं/हम बैंक को, बैंक की नीति अनुसार व एटीएम के संचालन के अनुसार तीसरे पक्ष को मेरे/अपने एटीएम से पैसा हस्तांतरण के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं कि पूर्व-शर्त के अनुसार, मुझे/हमें दिए गए/दिए जाने वाले तथा सभी तरह के कर्ज/अग्रिम/अन्य नॉन-फंड-बेस्ड क्रेडिट फेसिलिटीज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है व इन्हें बैंक ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारा बताने के लिए हमारी सम्मति है तथा अपनी देनदारी चुका न पाने की स्थिति में हम इनकी भरपायी का आश्वासन देते हैं।
2. Accordingly, I/we, hereby agree and give consent for the disclosure by HSBC India of all or any such:/ 2. तदनुसार, मैं/हम यह मानता/मानती/मानते तथा सम्मति देता/देती/देते हूँ/हैं कि बैंक सभी को या किसी को दे सकता है:
 - a) information and data relating to me/us/ a) मेरे/हमसे संबंधित जानकारी और आंकड़े;
 - b) the information or data relating to any credit facility availed of/to be availed, by me/us, and/ b) मेरे/हमारे द्वारा धारण की गई/धारण की जानेवाली कोई क्रेडिट सुविधा से सम्बन्धित सूचना एवं डाटा।
 - c) default, if any, committed by me/us, in discharge of my/our such obligation; as HSBC India may deem appropriate and necessary, to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) and/or any other agency authorised in this behalf by RBI./ c) डिफॉल्ट (अक्षमता), यदि हो तो, तथा मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त में, जिसे बैंक ने निर्धारित किया हो, जानकारी को किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल), और/अथवा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को।

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

3. I/We, declare that the information and data furnished by me/us to HSBC India are true and correct./ 3. मैं/हम यह घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बैंक को दी गई जानकारी व आंकड़े सत्य हैं.

4. I/We, undertake that:/ 4. मैं/हम यह स्वीकार करता/करती/करते हूँ/हैं कि:

- a) the CIBIL and/or any other agency so authorised may use, process the said information and data disclosed by HSBC India; and/ a) सीआईबीआईएल और अथवा अन्य एजेंसी जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहें तो बैंक द्वारा दी गई इस जानकारी और आंकड़ों का इस्तेमाल, व प्रोसेसिंग कर सकते हैं.
- b) the CIBIL and/or any other agency so authorised may furnish for consideration, the processed information and data of products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit grantors, as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf./ b) सीआईबीआईएल और/ अथवा अन्य एजेंसियां, जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, चाहें तो प्रोसेस हुई इस जानकारी और आंकड़ों और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए बैंक्स/फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंस और अन्य उधारी देने वालों को कंन्सीडरेशन के लिए दे सकते हैं.

E-mail Statement/ ईमेल स्टेटमेंट:

I/We may opt to receive the account statement on e-mail pursuant to which HSBC India will send the Statement in an electronic format to my e-mail ID specified on HSBC India's records. I/We agree, confirm and understand that in the event of opting to so receive statements vide e-mail, no physical statement will be sent to me/us by HSBC India. I/We shall notify HSBC India of any change in my/our e-mail ID. HSBC India will be deemed to have delivered the statement to me/us upon HSBC India not receiving a delivery failure notification. Should I/We experience any difficulty in accessing the electronically delivered statement, I/we shall promptly advise HSBC India for delivery through alternate means. Failure to advise HSBC India of such difficulty within 30 days after receiving the statement shall serve as an affirmation regarding the acceptance of the statement by me/us. I/We confirm(s) that I/we is/are aware of all security risks involved in receiving the electronically delivered statement. I/We agree(s) that I/we shall not hold HSBC India in any way responsible for the same. I/We agree that the statement will not be generated if no transactions are effected during the stipulated period of the statement cycle. I/We agree that duplicate statements of past transactions are issued against payment of charges as per HSBC India's current Tariff. In case of receiving e-statements through HSBC Internet Banking, I/We agree to be bound by the terms and conditions mentioned on the website www.hsbc.co.in./ मैं/हम ई-मेल पर खाता स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके अनुसरण में एचएसबीसी इंडिया द्वारा एचएसबीसी इंडिया के रिकॉर्ड में दर्ज मेरी/हमारी ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टेटमेंट भेजा जाएगा. मैं/हम सहमत हूँ/हैं, पुष्टि करता/करते हूँ/हैं और समझता/समझते हूँ/हैं कि ई-मेल के जरिए स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें कोई भौतिक स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा. मैं/हम अपने/हमारे ई-मेल आईडी में किसी भी बदलाव के एचएसबीसी इंडिया को सूचित करूंगा/करेंगे. एचएसबीसी को डिलीवरी विफल होने की सूचना नहीं मिलने पर एचएसबीसी इंडिया द्वारा मुझे/हमें स्टेटमेंट दिया गया माना जाएगा. यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए स्टेटमेंट को देखने में मुझे/हमें कोई कठिनाई महसूस होती है, तो मैं/हम तुरंत वैकल्पिक साधनों के माध्यम से डिलीवरी के लिए एचएसबीसी को सूचित करेंगे. स्टेटमेंट प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी को इस तरह की कठिनाई से अवगत कराने में विफलता मेरे/हमारे द्वारा स्टेटमेंट की स्वीकृति के संबंध में एक पुष्टि के रूप में काम करेगी. मैं/हम पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित स्टेटमेंट प्राप्त करने में निहित सभी सुरक्षा जोखिमों से अवगत हूँ/हैं. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मैं/हम एचएसबीसी को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे. मैं/हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि यदि स्टेटमेंट चक्र की निर्धारित अवधि के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है तो स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि पिछले लेनदेन के डुप्लिकेट स्टेटमेंट बैंक के वर्तमान प्रशुल्क के अनुसार शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाते हैं. एचएसबीसी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ई-स्टेटमेंट प्राप्त करने के मामले में, मैं/हम वेबसाइट www.hsbc.co.in पर उल्लिखित नियमों और शर्तों से आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं.

CRS, FATCA and CKYCR Declaration/Consent clause/ सीआरएस, फटका (FATCA) और सीकेवाईसीआर घोषणा/सहमति खंड:

I/We have read and understood the information requirements and the Terms and Conditions mentioned in this Form (and hereby confirm that the information provided by me on this Form is true, correct and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/We hereby agree and confirm to inform HSBC India for any modification to this information promptly. I/We further agree to abide by the provisions relating to 'Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) on Automatic Exchange of Information (AEOI) provided in Rules 114F to 114H of the Income Tax Rules, 1962'./ मैंने/हमने इस फॉर्म में उल्लिखित जानकारी की आवश्यकताओं और नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इस बात की पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है. मैं/हम इस जानकारी में किसी संशोधन को एचएसबीसी इंडिया को तुरंत सूचित करने के लिए सहमत हूँ/हैं और इसकी पुष्टि करता/करते हूँ/हैं. मैं/हम विदेशी मुद्रा खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) के प्रावधानों और आयकर नियम, 1962 के नियम 114F में 114H में उपबंधित सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (EOI) के सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (CRS) का पालन करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं.

I/We authorise you to update your records basis the above information. I/We also authorise you to share the given information provided by me/us with the any statutory/regulatory authorities, or HSBC group entities, as appropriate./ मैं/हम आपको उपर्युक्त जानकारी के आधार पर मेरे/हमारे रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं. मैं/हम आपको किसी भी वैधानिक/विनियामक प्राधिकरण या एचएसबीसी समूह की संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी को उचित रूप में साझा करने के लिए अधिकृत करता/करते हूँ/हैं.

I/We understand that the details provided in the form will be reconciled with your existing records and any discrepancy thereof will be duly highlighted to me/us for further rectification/ updation of records./ मैं/हम यह समझता/समझते हूँ/हैं कि फॉर्म में प्रदान किए गए विवरणों को आपके मौजूदा रिकॉर्ड के साथ समेट दिया जाएगा और रिकॉर्ड के आगे सुधार/अपडेशन के लिए किसी भी विवेक के बारे में मुझे/हमें सूचित किया जाएगा.

I/We acknowledge that the information contained in this form and information regarding the account holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/Jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/Jurisdiction or countries/Jurisdiction in which the account holder(s) may be tax resident(s) pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम स्वीकार करता/करते हूँ/हैं कि इस फॉर्म में निहित जानकारी और खाताधारक या किसी भी रिपोर्ट योग्य खाते (खातों) के बारे में जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार या देशों/क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं.

I/We certify that I/we am/are the account holder (or am/are authorised to sign for the account holder) of all the account(s) to which this form relates. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am aware that I/we may be held liable for the same./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम खाताधारक हूँ/हैं (या खाताधारक के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं) जो यह फॉर्म से संबंधित है. यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी पाई जाती है, तो मैं/हम जानता/जानते हूँ/हैं कि मैं/हम इसके लिए उत्तरदायी हो सकता/सकते हूँ/हैं.

I/We hereby consent for receiving information from Central KYC Registry through SMS/E-mail on the above mentioned registered number/e-mail address./ मैं /हम उपर्युक्त पंजीकृत नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देता/देते हूँ/हैं.

I/We certify that where I/we have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I/we have provided such information to HSBC and that such information may be provided to the tax authorities of the country/Jurisdiction in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/Jurisdiction or countries/Jurisdiction in which the person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information./ मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि जहाँ मैंने/हमने किसी अन्य व्यक्ति (जैसे कि एक नियंत्रक व्यक्ति या रिपोर्ट करने योग्य अन्य व्यक्ति जिससे यह फॉर्म संबंधित है) के बारे में जानकारी प्रदान की है, जो कि मैं/हम इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर उन व्यक्तियों को सूचित करूंगा/करेंगे कि मैंने/हमने एचएसबीसी को इस तरह की जानकारी प्रदान की है और यह जानकारी उस देश/क्षेत्राधिकार के कर अधिकारियों को प्रदान की जा सकती है जिसमें यह/ये खाता/खाते खोले गए हैं और ऐसे अन्य देश/क्षेत्राधिकार या देशों / क्षेत्राधिकारों के कर-प्राधिकारियों के साथ आदान-प्रदान की जा सकती है जिसमें खाताधारक वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-सरकारी समझौतों के अनुसरण में कर निवासी है/हैं.

I/We undertake to advise HSBC India within 30 days of any change in my circumstances which affects the tax residency status or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide HSBC India with a suitably updated self-certification and declaration within 90 days of such change in circumstances./ मैं अपनी परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर एचएसबीसी इंडिया को सूचित करने का वचन देता/देते हूँ/हैं, जो कर निवासी की स्थिति को प्रभावित करता है या इसमें निहित जानकारी को गलत बनाता है, और परिस्थितियों में इस तरह के बदलाव के 90 दिन के भीतर एचएसबीसी इंडिया को उपयुक्त रूप से अद्यतन स्व-प्रमाणन और घोषणा प्रदान करूंगा/करेंगे.

I/We also undertake to indemnify HSBC India for any loss (including but not limited to tax liability, interest and penalty) suffered by HSBC India as a result of

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

either relying upon this declaration or due to my/our delay/default in confirming the change, if any, of the declarations mentioned above. This indemnity shall survive the termination of relationships held by me/us with HSBC India./ मैं/हम या तो इस घोषणा पर निर्भर होने के परिणामस्वरूप या ऊपर वर्णित घोषणाओं में किसी परिवर्तन, यदि कोई हो, की पुष्टि करने में मेरी/हमारी ओर से विलम्ब/चूक के कारण एचएसबीसी इंडिया को हुए किसी भी नुकसान (कर देयता, ब्याज और जुर्माना सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के लिए एचएसबीसी इंडिया को क्षतिपूर्ति करने का भी वचन देता/देते हूँ/हैं. यह क्षतिपूर्ति एचएसबीसी इंडिया के साथ मेरे/हमारे द्वारा धारित संबंधों के समापन पर भी विद्यमान रहेगी.

Acknowledgement/ अभिस्वीकृति:

I/We acknowledge that HSBC India remains entitled to assign any activities to any third party agencies/service providers at its sole discretion. I/We further acknowledge the right of HSBC India to provide details of my/our account and sharing or transfer of information which will be on a confidential basis to HSBC Group offices or other third party agencies/service providers, whether located in India or overseas including but not limited for the purpose of availing support services of any nature by HSBC India. HSBC India may disclose information if required or permitted by any law, rule or regulation or at the request or direction of any public or regulatory authority or if such disclosure is required for the purposes of preventing fraud, without any further specific consent or authorisation from me/us./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता सेवा प्राप्त करने के लिए एचएसबीसी समूह के कार्यालयों या अन्य तृतीय पक्ष एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं, चाहे भारत में या विदेशों में स्थित हों, को मेरे/हमारे खाते के विवरण प्रदान करने और सूचना, जो गोपनीय आधार पर होगी, का आदान-प्रदान करने या साझा करने के लिए एचएसबीसी इंडिया के अधिकार को स्वीकार करते हैं. एचएसबीसी इंडिया किसी कानून, नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित या अनुमत होने पर अथवा किसी लोक या विनियामक प्राधिकारी के अनुरोध या दिशानिर्देश पर अथवा किसी धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजनार्थ आवश्यक होने पर मुझसे/हमसे किसी अतिरिक्त सहमति या प्राधिकरण के बिना किसी सूचना का प्रकटन कर सकता है.

I/We also undertake to indemnify HSBC India for any loss (including but not limited to tax liability, interest and penalty) suffered by HSBC India as a result of either relying upon this declaration or due to my/our delay/default in confirming the change, if any, of the declarations mentioned above. This indemnity shall survive the termination of relationships held by me/us with HSBC India/मैं/हम या तो इस घोषणा पर निर्भर होने के परिणामस्वरूप या ऊपर वर्णित घोषणाओं में किसी परिवर्तन, यदि कोई हो, की पुष्टि करने में मेरी/हमारी ओर से विलम्ब/चूक के कारण एचएसबीसी इंडिया को हुए किसी भी नुकसान (कर देयता, ब्याज और जुर्माना सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के लिए एचएसबीसी इंडिया को क्षतिपूर्ति करने का भी वचन देता/देते हूँ/हैं. यह क्षतिपूर्ति एचएसबीसी इंडिया के साथ मेरे/हमारे द्वारा धारित संबंधों के समापन पर भी विद्यमान रहेगी.

Photographs/ फोटोग्राफ

1	2	3
---	---	---

Customer Signatures/ ग्राहक के हस्ताक्षर

1 st applicant/ पहला आवेदक	2 nd applicant/ दूसरा आवेदक	3 rd applicant/ तीसरा आवेदक
---------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

Name/ नाम

--	--	--

Note/ नोट: If you are not the account holder and signing under a guardianship order (for court appointed guardians) please attach a certified copy of the guardianship order./ यदि आप खाताधारक नहीं हैं और संरक्षकत्व आदेश (न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक) के तहत हस्ताक्षर कर रहे हैं तो संरक्षकत्व आदेश की एक प्रमाणित प्रति संलग्न करें.

Capacity/ हैसियत:

--	--	--

(mention Guardian or POA as applicable/ संरक्षक या पीओए, जो भी लागू हो, का उल्लेख करें)

Date/ दिनांक:

--

Optional Services/ वैकल्पिक सेवाएं

Marketing Offers/International Services/Help us to know you better./ मार्केटिंग ऑफर/ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं/ आपको बेहतर रूप से समझने के लिए हमारी सहायता करें

Office Use/ कार्यालय उपयोग

I certify that the signature(s) and photograph(s) of the account holders shown in this form are genuine and correct./ मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस फॉर्म में दर्शाए गए खाताधारकों के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ असली और सही हैं.

Signature and photograph checked by/ हस्ताक्षर और फोटोग्राफ जांचकर्ता:

Employee name/ कर्मचारी का नाम _____

Employee number/ कर्मचारी संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

Signed in my presence (by Bank staff)/ मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया (बैंक स्टाफ द्वारा) _____

Information/ जानकारी

The selected definitions have been provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the Income Tax Rules, 1961 and OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (the CRS), the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link www.oecd.org/tax/automatic-exchange/. इस फॉर्म को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए चुनिंदा परिभाषाएँ की गई हैं. अधिक विवरण आयकर नियम, 1961 और वित्तीय लेखा सूचना (सीआरएस) के स्वचालित आदान-प्रदान हेतु ओईसीडी सामान्य रिपोर्टिंग मानक, सीआरएस से संबंधित कमेंट्री और देशी मार्गदर्शन के

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

तहत प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे निम्नलिखित लिंक www.oecd.org/tax/automatic-exchange पर पाया जा सकता है।

If you have any questions please contact your tax adviser or domestic tax authority. Self-Certification of documents is mandatory. The generation of KYC number/ identifier will be performed by HSBC India subject to availability of necessary technology./ यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया अपने कर सलाहकार या देशी कर प्राधिकरण से संपर्क करें। दस्तावेजों का स्व-प्रमाण अनिवार्य है। आवश्यक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के अधीन एचएसबीसी इंडिया द्वारा केवाईसी नंबर/पहचानकर्ता जनरेट किया जाएगा।

Every citizen is entitled to open an account in any bank anywhere in India. For this, you need any one of the following six documents: Aadhaar Card, MNREGA Card, Voter's identity card, Driving Licence, PAN card or Passport./ प्रत्येक नागरिक भारत में कहीं भी किसी भी बैंक में खाता खोलने का हकदार है। इसके लिए, आपको निम्नलिखित छह दस्तावेजों में से किसी एक की आवश्यकता है: आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट।

Additional proof of local address is not required if permanent address is there recorded in any of the above six documents./ यदि उपरोक्त छह दस्तावेजों में से किसी में भी स्थायी पता दर्ज है, तो स्थानीय पते के अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

Even if a person does not have any of these above documents, she/he can still open an account with the help of some additional documents under the simplified measures or open a small account which will have certain limitations with regard to withdrawal, credit and balance with a photograph. The 'Code of Bank's Commitment to Customers' was released by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) in January 2018. HSBC India is a member of the BCSBI. To obtain your copy of the code, please visit www.hsbc.co.in or one of our branches./ यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है, तो भी वह सरलीकृत उपायों के तहत कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की सहायता से अब भी खाता खोल सकता है या फोटोग्राफ से एक छोटा खाता खोल सकता है, जिसमें निकासी, जमा और शेष राशि के संबंध में कुछ सीमाएं होंगी। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) द्वारा जनवरी 2018 में 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' जारी किया गया। एचएसबीसी इंडिया बीसीएसबीआई का एक सदस्य है। संहिता की अपनी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए, कृपया www.hsbc.co.in देखें या हमारी किसी शाखा में जाएं।

Key things you should know/ मुख्य बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए

- HSBC Savings Account brings to you a range of features that include/ एचएसबीसी बचत खाता आपको देता है अनगिनत खूबियां, जिनमें शामिल हैं:
 - Personalised payable-at-par cheque book/ पर्सनलाइज्ड पेयेबल-एट-पार चेक बुक
 - An international debit card with a daily cash withdrawal limit and daily purchase limit of ₹100,000 each per day per account/ ₹100,000 रुपये प्रति दिन प्रति खाता की दैनिक नकद आहरण सीमा और दैनिक क्रय सीमा से युक्त एक अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड
 - Personal Internet Banking that allows you the convenience of transacting and paying your bills online/ पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग जो देती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और आपके बिल्स के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
- You can enjoy the host of benefits/features of this account if you/ इन खातों के फायदों/खूबियों के आनंद उठाने के लिए आपको:
 - Maintain an Average Quarterly Balance (AQB) of ₹150,000 or more in a combination of savings account, current account and fixed deposit balances/ अपने बचत खाते, चालू खाते तथा फिक्स्ड डिपॉजिट को मिला कर ₹150,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) या अधिक शेष राशि का औसत त्रैमासिक शेष (एक्यूबी) का शेष बनाए रखें OR/ या
 - Hold a Corporate Salary Account under the Corporate Employee Programme (CEP) with monthly salary credits into this account/ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी प्रोग्राम (सीईपी) के तहत कॉर्पोरेट सैलरी एकाउंट रखें जिस खाते में प्रतिमाह सैलरी जमा होती हो OR/ या
 - Have a mortgage relationship with HSBC, with Equated Monthly Instalments (EMI) being debited from this account towards the mortgage loan repayment with HSBC/ एचएसबीसी के साथ वह मॉर्गेंज रिलेशनशिप बनाए रखें जिसमें से एचएसबीसी से लिए गए मॉर्गेंज लोन को चुकाने के लिए इक्वेटेड मन्थली इंस्टालमेंट (ईएमआई) कटती हो
- Customers need to fulfil the HSBC Savings Account AQB, failing which a quarterly Service Charge of 1% subject to a maximum of ₹1,200 (plus applicable taxes^{ss}) of the shortfall of the AQB will be levied for the quarters in which the eligibility criteria is not met. A notification will be sent to customers in the month immediately following the end of the quarter in case the account has had a shortfall. In the event the AQB is restored to the required level in the following quarter, there will be no charge. If there remains a shortfall, the Service Charge will be levied on the lower of the shortfalls in the two relevant quarters/ ग्राहकों को एचएसबीसी बचत खाता औसत तिमाही शेष (AQB) को बनाए रखने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर, AQB की कमी के अधिकतम ₹1,200 (प्लस लागू कर) के अधीन 1% का तिमाही सेवा प्रभार उन तिमाहियों के लिए लगाया जाएगा, जिनमें पात्रता मानदंड पूरा नहीं हुआ है। खाते में कमी होने की स्थिति में तिमाही के अंत के तुरंत बाद ग्राहकों को एक सूचना भेजी जाएगी। यदि AQB को अगली तिमाही में आवश्यक स्तर पर ला दिया जाता है, तो कोई प्रभार नहीं होगा। यदि कोई कमी रह जाती है, तो सेवा प्रभार दो संबंधित तिमाहियों में कमियों में सबसे कम कमी पर लगाया जाएगा।
- For detailed information on HSBC Savings Account, eligibility criteria, account rules, service charges as well as applicable terms and conditions, please visit the 'Savings Account' section on our website www.hsbc.co.in/ एचएसबीसी बचत खाता, पात्रता मानदंड, खाता नियम, सेवा शुल्क के साथ-साथ लागू नियमों और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.hsbc.co.in पर 'Savings Account' सेक्शन देखें।
- HSBC will notify you of any changes in the terms and conditions of this product with prior notice of one month/ एचएसबीसी आपको एक महीने की पूर्व सूचना के साथ इस पेशकश (ऑफरिंग) के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करेगा।

^{ss}Please note that basis Goods and Services Tax (GST) regulations and notified GST rates, Central GST, State/Union Territory GST, or Inter-State GST, as applicable, and Cess as applicable would apply on our fees and charges.^{ss}कृपया ध्यान दें कि हमारी फीस और प्रभारों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) विनियम और अधिसूचित जीएसटी दरें, केंद्रीय जीएसटी, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, या अंतर-राज्य जीएसटी, जैसा कि लागू हो, और यथा लागू उपकर लागू होंगे।

Additional Details/ अतिरिक्त विवरण

Associated person(s)/ सम्बद्ध व्यक्ति(यों)

Same as/ के समान Joint accountholder 1/ संयुक्त खाताधारी 1 Joint accountholder 2/ संयुक्त खाताधारी 2 If different/ यदि अलग हो तो

KYC number/ केवाईसी नंबर (Number would be given by Central KYC registry/ (नंबर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा) (If available/ (यदि उपलब्ध हो)

Associated person(s) details:/ सम्बद्ध व्यक्ति विवरण: Individual/ वैयक्तिक Entity/ संस्था Existing Customer/ मौजूदा ग्राहक Yes/ हाँ No/ नहीं

Customer ID/ ग्राहक आईडी Account number/ खाता नंबर

Relationship with applicant/ आवेदक के साथ संबंध _____ Type of arrangement in place/ मौजूदा व्यवस्था का प्रकार

Legal/ विधिक Written/ लिखित Informal/ औपचारिक

Salutation/ संबोधन Mr./ श्री Mrs./ श्रीमति Ms./ सुश्री Mst./ मास्टर Title/ शीर्षक Dr./ डॉ. Prof./ प्रो. Not Applicable/ लागू नहीं

Any other/ कोई अन्य Please specify/कृपया निर्दिष्ट करें _____

Full Name/ पूरा नाम (In the order of First Name, Middle name, Last name)/ (प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम के क्रम में)

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Road number/name/ रोड क्रमांक/नाम

Area and landmark/ क्षेत्र एवं लैंडमार्क

City/ शहर District/ जिला State/ राज्य

Country/Territory/ देश/क्षेत्र Pin code/ पिन कोड

Customer

Signatures/ ग्राहक
के हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक:

Optional Services/ वैकल्पिक सेवाएं

Marketing Offers/International Services/Help us to know you better/ मार्केटिंग ऑफर्स/ अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं/ आपको बेहतर रूप से समझने के लिए हमारी सहायता करें

Marketing Offers Consent/ मार्केटिंग ऑफर्स कन्सेंट

1. Marketing offers/ मार्केटिंग ऑफर्स

- From time to time, HSBC India communicates various features/products/promotional offers which offer significant benefits to its customers and may use the services of third party agencies to do so. Do you wish to be informed about such benefits?/ एचएसबीसी इंडिया, अपनी खूबियों/उत्पादों/ प्रमोशनल ऑफर्स, जो अपने ग्राहकों को ढेरों फायदे देते हैं, के बारे में समय-समय पर बताते रहते हैं. ग्राहक इन तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. क्या आप भी इन ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं?
- I/We expressly authorise HSBC India to use information or data relating to me/us, for communicating marketing offers as outlined above. No, I/we do not wish to receive offers as outlined above./ मैं/हम एचएसबीसी इंडिया को विशेष रूप से उपरोक्त उल्लिखित मार्केटिंग ऑफर्स बताने के लिए मेरे/हमारे से संबंधित जानकारी या आंकड़े के इस्तेमाल के लिए अधिकृत करते हैं. नहीं, मैं/हम उपरोक्त उल्लिखित ऑफर्स को प्राप्त करना/करने चाहता/चाहते हूँ/हैं. For customers who wish to receive such marketing offers, but do not wish to be communicated the same by way of telephone calls/SMSes from HSBC India, we offer a 'do-not-call' service. To register for this, please visit our website www.hsbc.co.in/ लेकिन वे इन्हें एचएसबीसी द्वारा किए गए टेलीफोन कॉल्स/एसएमएस के माध्यम से नहीं चाहते, हम डू नॉट कॉल सेवा उपलब्ध कराते हैं. इस सेवा पर पंजीकरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hsbc.co.in पर पधारें.
- I/We expressly authorise HSBC India to give or make available to any member of the HSBC Group*, information or data relating to me/us, whether provided by me/us or otherwise, in connection with the offer, sale or distribution of products and services offered by such entities, in which I/we have expressed interest. I/We understand that my/our information will be protected by a strict code of secrecy and security to which all members of the HSBC Group and their staff are subject to./ जो अलग शख्सियतों द्वारा दिए जाते हैं, तथा जिनमें मेरी/हमारी विशेष अभिरुचि है, ऑफर्स, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में, मुझ/हम से संबंधित जानकारी या आंकड़े, जो मेरे/हमारे द्वारा दिए गए या किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध हुए हों, दिए जाने या उपलब्ध कराने के लिए एचएसबीसी समूह* को अधिकृत करते हैं. मैं समझता/समझती हूँ कि मुझसे /हमसे संबंधित जानकारी/आंकड़ों को गुप्तता के कोड के तहत पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा, तथा एचएसबीसी समूह के सभी सदस्य और उनके कर्मचारी इनसे बंधे रहेंगे.

Signature/ हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक:

Customer ID/Account No./ कस्टमर आईडी/
खाता संख्या

Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम
खाताधारी

Customer ID/Account No./ कस्टमर आईडी/खाता संख्या

Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम खाताधारी

Signature/ हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक:

Customer ID/Account No./ कस्टमर आईडी/
खाता संख्या

Joint Accountholder 1/ संयुक्त खाताधारी 1

Signature/ हस्ताक्षर

Name/ नाम

Date/ दिनांक:

Customer ID/Account No./ कस्टमर आईडी/
खाता संख्या

Joint Accountholder 2/ संयुक्त खाताधारी 2

*HSBC Group means HSBC Holdings plc, its subsidiaries, associated and affiliated companies./ *एचएसबीसी ग्रुप का अर्थ है एचएसबीसी होल्डिंग पीएलसी, इनकी सहयोगी, जुड़ी और संबद्ध कंपनियां.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Optional Services/ वैकल्पिक सेवाएं

HELP US TO KNOW YOU BETTER FORM/ आपको बेहतर जानने के लिये हमारी मदद हेतु फार्म

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (Bank)/ दी हाँगकाँग एण्ड शांघाय बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इण्डिया (बैंक)

	Sole/First accountholder एकल/प्रथम खाताधारी	Joint accountholder 1 संयुक्त खाताधारी 1	Joint accountholder 2 संयुक्त खाताधारी 2
--	------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

Number of children/ बच्चों की संख्या

Please specify the number of children (Enter number)/ कृपया बच्चों की संख्या निर्दिष्ट करें (संख्या डालें)

Please check the boxes and fill in the requested information under applicant 1, 2 or 3/कृपया सही पर्याय पर निशान लगायें तथा चाही गई सूचना प्रार्थना पत्र 1, 2 अथवा 3 के अन्तर्गत भरें

**Education
योग्यता**

1. Undergraduate / अण्डरग्रेजुएट
2. Graduate/ स्नातक
3. Postgraduate/ स्नोतकोत्तर
4. Professional/ पेशेवर
5. Others/ अन्य

Sole/First accountholder
एकल/प्रथम खाताधारी

Joint accountholder 1
संयुक्त खाताधारी 1

Joint accountholder 2
संयुक्त खाताधारी 2

**House ownership
घर का स्वामित्व**

1. Company residence/ कम्पनी का निवास
2. Fully-owned private house/ स्वयं का मकान
3. Mortgage property/ बंधक सम्पत्ति
4. Rented house/ किराये का मकान
5. Living with parents/relatives/ अभिभावक/संरक्षक के साथ रहते हैं
6. Others/ अन्य
7. PG/hostel. पीजी/हॉस्टल

Sole/First accountholder
एकल/प्रथम खाताधारी

Joint accountholder 1
संयुक्त खाताधारी 1

Joint accountholder 2
संयुक्त खाताधारी 2

**Car ownership
गाड़ी का स्वामित्व**

1. Yes/ हाँ

Sole/First accountholder
एकल/प्रथम खाताधारी

Joint accountholder 1
संयुक्त खाताधारी 1

Joint accountholder 2
संयुक्त खाताधारी 2

**How did you decide to open an account with HSBC India?
आपने एचएसबीसी के साथ खाता खोलने का निश्चय कैसे किया।**

1. Recommendation by family/friends/
परिवार/मित्रगणों द्वारा निर्देशित करने पर
2. Family has always banked with HSBC India
परिवार हमेशा से एचएसबीसी के साथ बैंकिंग करता आ रहा है
3. Response to an advertisement/किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर
4. Response to direct mailer/ किसी मेल से प्रभावित होकर
5. Dissatisfaction with previous bank / पुरानी बैंक की सेवाओं से असंतुष्ट होकर
6. Convenient branch location/ सुविधाजनक जगह पर शाखा का होना
7. Employer's bank for salary payment / वेतन एचएसबीसी के खाते में आने के कारण
8. Approached by HSBC India representative/telemarketing unit
किसी एसएसबीसी के प्रतिनिधि/टेली मार्केटिंग कम्पनी द्वारा सम्पर्क करने पर
9. Convenient ATM locations/other reasons
सुविधाजनक जगह पर एटीएम का होना/अन्य कारण

Sole/First accountholder
एकल/प्रथम खाताधारी

Joint accountholder 1
संयुक्त खाताधारी 1

Joint accountholder 2
संयुक्त खाताधारी 2

Nomination Form (Form DA-1) for Bank Account/नॉमिनेशन फॉर्म (फॉर्म डीए-1) बैंक के लिए

(While the nomination facility is optional, we recommend that you avail of it.)/(नामांकन सुविधा हालांकि ऐच्छिक है, फिर भी हमारा सुझाव है कि आप इसका लाभ लें.)

For bank's use/ केवल बैंक के प्रयोग के लिए

Account/Receipt no./ खाता/रसीद सं.

(Form DA1: Nomination under Section-45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of bank deposits)
(फॉर्म डीए-1: (बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 45 जेडए तथा बैंक डिपॉजिट्स के संबंध में बैंकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) रूल्स, 1985, के रूल 2(1) के अंतर्गत नामांकन

I/We [enter name(s) and address(es) of accountholder(s)] Address as per bank record:

मैं/हम (खाताधारक (कों) का नाम व पता भरें) बैंक रिकॉर्ड के अनुसार पता:

Name of accountholder:

खाताधारक का नाम:

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

ACKNOWLEDGMENT/ प्राप्ति की रसीद

Received the nomination and registered in the Bank's books. Payment in terms of the nomination will be effected on the nominee furnishing proof of his/her claim in the prescribed form. The Bank may at its discretion accept such claim or prescribe compliance of additional formalities before effecting payment./ नामांकन प्राप्त किया और बैंक की बहियों में पंजीकृत किया. नामांकन के निबंधनों के अनुसार भुगतान नामिती द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने पर किया जाएगा. बैंक स्वविवेकानुसार ऐसे दावे को स्वीकार कर सकता है या भुगतान करने से पहले अतिरिक्त औपचारिकताओं का अनुपालन निर्धारित कर सकता है.

Branch/
शाखा:

For The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited/
हंगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

Date/दिनांक:

Authorised signature/
प्राधिकृत हस्ताक्षर:

Form 60/ फॉर्म 60

(See second proviso to rule 114B) Income-tax Rules, 1962/ (नियम 114बी का दूसरा प्रावधान देखें) आयकर नियम, 1962

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B/ ऐसे वैयक्तिक या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र, जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114बी में निर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है.

1.	First Name/ प्रथम नाम								
	Middle Name/ मध्यम नाम								
	Surname/ उपनाम								
2.	Date of Birth/Incorporation of declarant/ जन्म तारीख/ घोषणाकर्ता का निगमन	दिन	दिन	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
3.	Father's Name (in case of individual)/ पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)								
	First Name/ प्रथम नाम								
	Middle Name/ मध्यम नाम								
	Surname/ उपनाम								
4.	Flat/Room No./ फ्लैट/कमरा नं.	5.	Floor No./ मंजिल संख्या						
6.	Name of premises परिसर का नाम	7.	Block Name/No./ ब्लॉक का नाम/संख्या						
8.	Road/Street/Lane रोड/मार्ग/गली	9.	Area/Locality/ क्षेत्र/इलाका						
10.	Town/City/ कस्बा/शहर	11.	District/ जिला	12.	State/ राज्य				
13.	Pin code/ पिन कोड	14.	Telephone Number (with STD code) टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड सह)	15.	Mobile Number मोबाइल नंबर				
16.	Amount of transaction (₹) लेनदेन की राशि (₹)								
17.	Date of transaction लेनदेन की तारीख	दिन	दिन	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
18.	In case of transaction in joint names, number of persons involved in the transaction संयुक्त नामों से लेनदेन के मामले में लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की संख्या								
19.	Mode of transaction:/ लेनदेन का तरीका: <input type="checkbox"/> Cash/ नागद <input type="checkbox"/> Cheque/ चेक <input type="checkbox"/> Card/ कार्ड <input type="checkbox"/> Draft/Banker's Cheque/ ड्राफ्ट/बैंकर चेक <input type="checkbox"/> Online transfer/ ऑनलाइन अंतरण <input type="checkbox"/> Other/ अन्य								
20.	Aadhaar Number issued by UIDAI (if available) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)								
21.	If applied for PAN and it is not yet generated enter date of application and acknowledgement number/ यदि पैन के लिए आवेदन किया है और यह तैयार नहीं हुआ है तो आवेदन की तारीख और पावती संख्या लिखें	दिन	दिन	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

22.	If PAN not applied, fill estimated total income (including income of spouse, minor child, etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) for the financial year in which the above transaction is held/ यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो उस वित्तीय वर्ष की अनुमानित कुल आय (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति-पत्नी, अयवस्क बच्चे, आदि की आय सहित) भरें जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है.			
a	Agricultural income (₹) क. कृषि आय (₹)			
b	Other than agricultural income (₹) ख. कृषि के अलावा अन्य आय (₹)			
23.	Details of document being produced in support of identity in Column 1 (Refer Instruction overleaf)/ कॉलम 1 में पहचान के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण (पृष्ठभाग पर अनुदेश देखें)	Document code/ दस्तावेज कोड	Document identification number/ दस्तसवेज पहचान संख्या	Name and address of the authority issuing the document/ दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता
24.	Details of document being produced in support of address in Columns 4 to 13 (Refer Instruction overleaf)/ कॉलम 4 से 13 में पते के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण (पृष्ठभाग पर अनुदेश देखें)	Document code/ दस्तावेज कोड	Document identification number/ दस्तसवेज पहचान संख्या	Name and address of the authority issuing the document/ दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता

Verification/ सत्यापन

I, _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Income-tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax./ एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो वर्णित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति-पत्नी, अयवस्क बच्चे, आदि की आय सहित) जिसकी गणना उस वित्तीय वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किये गये हैं, कर के लिए आदेय अधिकतम राशि से कम नहीं होगी.

Verified today, the _____ day of _____ 20_____/ आज, दिनांक _____ 20_____ को सत्यापित

Place:/ स्थान: _____

(Signature of declarant/ (घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

Note/ टिप्पणी:

- Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable./ 1. घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता को स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि इस फॉर्म में प्रस्तुत जानकारी पूरी तरह से सही, उचित और पूर्ण है. घोषणा में गलत बयानी करने वाला व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग के लिए दायी होगा और अपराध सिद्ध होने पर दंड का भागी होगा.
 - in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;/ i) जिन मामलों में कर वंचना पच्चीस लाख रुपये से अधिक होगी, उनमें कठोर कारावास जो कम से कम छह माह का अधिकतम सात वर्ष तक और साथ में आर्थिक दंड भी हो सकता है;
 - in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine./ (ii) अन्य मामलों में कठोर कारावास जो कमसे कम तीन माह और अधिकतम दो वर्ष और साथ में आर्थिक दंड भी हो सकता है.
- The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and Column 21 is duly filled./ 2. घोषणा स्वीकार करने वाला व्यक्ति उस स्थिति में घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जब मद 22 बी में उल्लिखित आय की राशि उस अधिकतम सीमा से ऊपर होगी, जिस पर कर देय नहीं है, इसके लिए पैन हेतु ओवदन कर दिया गया है और कॉलम 21 भलीभांति भरा गया है.

Instruction/ अनुदेश:

- (1) Documents which can be produced in support of identity and address/(1) पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किये जा सकने वाले दस्तावेज (not required if applied for PAN and item 20 is filled/ (पैन के लिए आवेदन करने और आइटम 20 के भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं):

Sl. No./ क्र. सं.	Nature of Document/ दस्तावेज का स्वरूप	Document Code/ दस्तावेज का कोड	Proof of Identity/ पहचान का प्रमाण	Proof of Address/ पते का प्रमाण
A/ क.	For Individuals and HUF/ व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए			
1.	Aadhaar card/ आधार कार्ड	01	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
2.	Bank/Post office passbook bearing photograph of the person/ बैंक/डाकघर की पासबुक जिसमें व्यक्ति को फोटोग्राफ हो	02	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
3.	Elector's photo identity card/ मतदाता फोटो पहचान कार्ड	03	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/(एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

4.	Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person/ राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्ड जिसमें व्यक्ति को फोटोग्राफ हो	04	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
5.	Driving Licence/ ड्राइविंग लाइसेंस	05	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
6.	Passport/ पासपोर्ट	06	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
7.	Pensioner photo card/ पेंशनभोगी का फोटो कार्ड	07	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
8.	National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job card/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) जॉब कार्ड	08	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
9.	Caste or Domicile certificate bearing photo of the person/ जाति या निवास प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति को फोटोग्राफ हो	09	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
10.	Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per Annexure A prescribed in Form 49A/ फॉर्म 49ए में वर्णित अनुबंध ए के अनुसार सांसद/विधायक या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाणपत्र	10	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
11.	Certificate from employer as per Annexure B prescribed in Form 49A/ Certificate from employer as per Annexure B prescribed in Form 49A/ फॉर्म 49ए में वर्णित अनुबंध बी के अनुसार नियोक्ता से प्रमाणपत्र	11	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
12.	Kisan passbook bearing photo/ किसान पासबुक जिसमें फोटो लगा हो	12	Yes/ हाँ	No/ नहीं
13.	Arm's licence/ शस्त्र लाइसेंस	13	Yes/ हाँ	No/ नहीं
14.	Central Government Health Scheme/Ex-servicemen Contributory Health Scheme card/ केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना/ पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड	14	Yes/ हाँ	No/ नहीं
15.	Photo identity card issued by the Government/Public Sector Undertaking/ सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड	15	Yes/ हाँ	No/ नहीं
16.	Electricity bill (Not more than 3 months old)/ बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	16	No/ नहीं	Yes/ हाँ
17.	Landline Telephone bill (Not more than 3 months old)/ लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	17	No/ नहीं	Yes/ हाँ
18.	Water bill (Not more than 3 months old)/ पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	18	No/ नहीं	Yes/ हाँ
19.	Consumer gas card/book or piped gas bill (Not more than 3 months old)/ उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	19	No/ नहीं	Yes/ हाँ
20.	Bank account statement (Not more than 3 months old)/ बैंक खाता विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	20	No/ नहीं	Yes/ हाँ
21.	Credit card statement (Not more than 3 months old)/ क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	21	No/ नहीं	Yes/ हाँ
22.	Depository account statement (Not more than 3 months old)/ डिपॉजिटरी खाता विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)	22	No/ नहीं	Yes/ हाँ
23.	Property registration document/ संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	No/ नहीं	Yes/ हाँ
24.	Allotment letter of accommodation from Government/ सरकारी आवास आबंटन पत्र	24	No/ नहीं	Yes/ हाँ
25.	Passport of spouse bearing name of the person/ पति-पत्नी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	No/ नहीं	Yes/ हाँ
26.	Property tax payment receipt (Not more than one year old)// संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी न हो)	26	No/ नहीं	Yes/ हाँ
B/ ख.	For Association of persons/ व्यक्तियों के संघ के लिए (Trusts/ न्यास)			
	Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner/ न्यास विलेख की प्रति या धर्मार्थ आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	27	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ
C/ ग.	For Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local authority or Artificial Juridical Person/ व्यक्तियों के संघ (न्यास के अलावा) या व्यक्तियों की निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति)			
	Copy of agreement or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner or Registrar of cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person./ करार की प्रति या धर्मार्थ आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग से जारी किसी अन्य दस्तावेज की प्रति जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता साबित होता हो.	28	Yes/ हाँ	Yes/ हाँ

(2) In case of a transaction in the name of a minor, any of the abovementioned documents as proof of identity and address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian./ (2) अवयस्क के नाम में लेनदेन के मामले में ऐसे अवयस्क के माता-पिता/अभिभावक की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त दस्तावेजों में कोई एक अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान और पते का प्रमाण माना जायेगा और घोषणापत्र पर माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा.

(3) For HUF any document in the name of Karta of HUF is required./ (3) एचयूएफ के मामले में एचयूएफ के कर्ता के नाम में कोई भी दस्तावेज आवश्यक है.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Staff number/ स्टाफ संख्या

Step 1/ कदम 1

1. Existing customer/ मौजूदा ग्राहक
 Yes/ हाँ No/ नहीं
2. SCC/HRC/ एससीसी/एचआरसी
 Yes/ हाँ No/ नहीं

Step 2/ कदम 2

1. Screening checks/ स्क्रीन जांच
 Yes/ हाँ No/ नहीं
2. POA/ पीओए
 Yes/ हाँ No/ नहीं

Step 3/ कदम 3

1. PI and PA Exception/ पीआई और पीए अपवाद
 Yes/ हाँ No/ नहीं

Is this a new customer applying for a Credit Card only?/ क्या यह नया ग्राहक है जो केवल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Face to Face/ आमने-सामने Yes/ हाँ No/ नहीं Channel Type/ चैनल का प्रकार _____

Does the country/Jurisdiction of Tax Residency appear inconsistent with the Customers residential address(es), correspondence address(es) and nationality/Citizenship or TIN provided?/ क्या कर वाले देश/अधिकारक्षेत्र में दिया गया निवास ग्राहक का आवासीय पता, पत्रव्यवहार का पता और राष्ट्रियता/नागरिकता या टिन से असंगत लगता है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Has the Customer's Identity been verified in line with the required standards?/ क्या अपेक्षित मानकों के अनुरूप ग्राहक की पहचान का सत्यापन किया गया है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Is the customer able to provide required ID? / या ग्राहक अपेक्षित आईडी प्रदान कर पाया है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Specify category of special circumstances/ विशिष्ट परिस्थितियों की विशेष श्रेणी _____

Is a CDD Risk Acceptance request required to be submitted to Business and FCC/ क्या व्यवसाय और एफसीसी को सीडीडी जोखिम स्वीकृति अनुरोध भेजने की जरूरत है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Was the CDD Risk Acceptance request approved by Business Risk/FCC?/ क्या व्यवसाय जोखिम/एफसीसी द्वारा सीडीडी जोखिम स्वीकृति अनुरोध अनुमोदित किया गया था? Yes/ हाँ No/ नहीं

Confirm that the residential address history for the last three years is recorded?/ पुष्टि करें कि गत तीन वर्षों का आवासीय पता का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Why is the Customer applying for an account in a country/territory which is not their country of residence?/ ग्राहक ऐसे देश/क्षेत्र में खाते के लिए क्यों आवेदन कर रहा है जो उसके आवास का देश नहीं है? _____

Confirm the customer's occupation as a student and end course date has been validated/ छात्र के रूप में ग्राहक के पेशे की पुष्टि करें और पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख की पुष्टि की गई है Yes/ हाँ No/ नहीं

Select a currency to apply to all intended transactions/ सभी अभीष्ट लेनदेनों पर लागू मुद्रा का चयन करें: _____

Does the customer have, or is asking for, a safe Custody product?/ क्या ग्राहक के पास सुरक्षित अभिरक्षा योजना उपलब्ध है या उसकी मांग कर रहा है? Yes/ हाँ No/ नहीं

On average how much funds does the customer intend to retain in their account over the _____ next 12 months (TRB)?/ अगले 12 महीनों _____ में ग्राहक औसतन कितनी निधियां (टीआरबी) अपने खाते में रखने का इरादा रखता है? This is not a Customer facing question but is required to identify if the Customer is an HNWI./ यह प्रश्न ग्राहक के लिए नहीं है लेकिन यह जानने की जरूरत है कि क्या ग्राहक एचएनडब्ल्यूआई है?

Will the Customer be Top Tier (to identify HNWI)?/ क्या ग्राहक शीर्ष टियर में होगा (एचएनडब्ल्यूआई की पहचान करें)? Yes/ हाँ No/ नहीं

Is a manual EDD trigger required for the customer?/ क्या ग्राहक के लिए मैनुअल ईडीडी ट्रिगर की जरूरत है? Yes/ हाँ No/ नहीं

What are the categories of Products the customer is opening?/ ग्राहक से योजनाओं की कौनसी श्रेणी के अवसर है?

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ATM or Debit/ एटीएम या डेबिट कार्ड | <input type="checkbox"/> Card Credit Cards/ कार्ड क्रेडिट कार्ड्स |
| <input type="checkbox"/> Current A/c/ चालू खाता | <input type="checkbox"/> Savings A/c/ बचत खाता |
| <input type="checkbox"/> Fixed Term Loan-Unsecured/ नियत अवधि वाले ऋण - अप्रतिभूत | <input type="checkbox"/> Instant Access Savings A/c/ तत्काल अभिगम बचत खाता |
| <input type="checkbox"/> Secured Fixed Term Loans/ प्रतिभूत नियत अवधि वाले ऋण | <input type="checkbox"/> Secured Revolving Line Of Credit/ प्रतिभूत आवर्ती ऋण व्यवस्था |
| <input type="checkbox"/> Term Deposits/ मीयादी जमाशियां | <input type="checkbox"/> Unsecured Revolving Line Of Credit/ अप्रतिभूत आवर्ती ऋण व्यवस्था |

Has the source of cash deposit been validated?/ क्या नकदी जमा के स्रोत की पुष्टि कर ली गई है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Upload documentary evidence/ दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करना Yes/ हाँ No/ नहीं

Confirm the purpose of opening the account(s) is consistent with the expected account activity and the Customer's profile, including their Source of Funds and Source of Wealth (where applicable)?/ पुष्टि करें कि खाता खोलने का उद्देश्य खाते में प्रत्याशित गतिविधि और ग्राहक रूपरेखा के अनुरूप है जिसमें उनकी निधियों का स्रोत और धनसंपदा का स्रोत (जहां लागू हो) शामिल हो? Yes/ हाँ No/ नहीं

Is the customer likely to engage in funds transfers to/from high risk or sensitive sanctioned countries/ या ग्राहक द्वारा निधि अंतरण उच्च जोखिम या संवेदनशील प्रतिबंधित देशों को/से करने की संभावना है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

What level of influence does the Connected Party have over the account?/ संबंधित पक्षकार का खाते पर किस स्तर का प्रभाव है? _____

Rationale for connection/ संबंध का तर्काधार _____

Is the connected party's customer record in the same system as the main party's?/ क्या संबद्ध पक्षकार के ग्राहक का रिकॉर्ड मुख्य पक्षकार के रूप में उसी सिस्टम में उपलब्ध है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Confirm that the identity of the connected party (full name, residential address) has been verified/ पुष्टि करें कि संबद्ध पक्षकार की पहचान (पूरा नाम, आवासीय पता) की पुष्टि कर ली गई है. Yes/ हाँ No/ नहीं

Is there a reasonable connection between the connected party and the customer?/ संबद्ध पक्षकार और ग्राहक के बीच कोई उचित संबंध है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Is the connected party a Politically Exposed Person (PEP)?/ क्या संबद्ध पक्षकार का राजनैतिक संबंध (पीईपी) है? Yes/ हाँ No/ नहीं

Was Connected Party's Identity verified through the use of Electronic or Documentary sources?/ क्या संबद्ध पक्षकार की पहचान की पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक उपयोग या दस्तावेजी स्रोत के जरिये की गई थी? Yes/ हाँ No/ नहीं

Were any exceptions (to global CDD policy) noted during the Connect Party verification process?/ संबद्ध पक्षकार की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कोई अपवाद (वैश्विक सीडीडी नीति के मामले में) था? Yes/ हाँ No/ नहीं

Provide the rationale for the upwards revision of the risk rating and any other relevant information that you wish to note in relation to the Customer that may affect their application?/ जोखिम रेटिंग में आरोही संशोधन और अन्य प्रासंगिक जानकारी का तर्काधार प्रदान करें जो आप ग्राहक के बारे में नोट करना चाहते हैं जो उसके आवेदन को प्रभावित कर सकता है? _____

KYC completed and Account record checked by/ केवाईसी पूरा किया और खाते के रिकॉर्ड की जांच द्वारा की गई: (To be completed by the account opening staff)/ (खाता खोलने वाले स्टाफ के द्वारा पूरा किया जाये)

Is IWP issued for the Customer/ क्या ग्राहक का आईडब्ल्यूपी जारी किया गया है Yes/ हाँ No/ नहीं

New account number(only in case of IWP)/ नया खाता संख्या (केवल आईडब्ल्यूपी मामले में)

Staff Name/ स्टाफ का नाम _____

Staff ID/ स्टाफ आईडी Staff Designation/ स्टाफ का पदनाम _____

Staff Signature/ स्टाफ के हस्ताक्षर _____

Date of submission of all documents/ सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख _____

Name of HSBC Relationship Manager/ एचएसबीसी संपर्क प्रबंधक का नाम _____ Please mark as NA in case of HSBC Savings/Current account/ एचएसबीसी बचत/चालू खाते के मामले में लागू नहीं लिखें

HSBC Secondary Relationship Manager Code/ एचएसबीसी के दूसरे संपर्क प्रबंधक का कोड _____ Please mark as NA in case of HSBC Savings/Current account/ एचएसबीसी बचत/चालू खाते के मामले में लागू नहीं लिखें

AAA aligned to customer profile/ एए को ग्राहक रूपरेखा से जोड़ा गया Yes/ हाँ No/ नहीं

KYC completed and account opening authorised by/ केवाईसी पूरा किया और खाता खोलने को द्वारा अधिकृत किया गया (शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रमुख का ब्योरा) (Branch Manager/Regional Head details)/ (शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रमुख का ब्योरा)

I have verified the name of the customer on AOF with the KYC documents provided and confirm that it meets the standards of CDD. I also hereby confirm that customer's photo on PI and PA (if photo ID) matches with the photo on AOF/ मैंने एओएफ पर ग्राहक के नाम का प्रदत्त केवाईसी दस्तावेजों से सत्यापन किया है और पुष्टि करता हूँ कि यह सीडीडी मानकों को पूरा करता है. मैं एतद् द्वारा यह भी पुष्टि करता हूँ कि पीआई और पीए पर ग्राहक की फोटो एओएफ पर फोटो से मिलती है. Yes/ हाँ No/ नहीं

Branch Manager/ शाखा प्रबंधक/Regional Head Name/ क्षेत्रीय प्रमुख का नाम _____

Branch Manager/ शाखा प्रबंधक/Regional Head Staff Number/ क्षेत्रीय प्रमुख स्टाफ संख्या

Branch Manager's/ शाखा प्रबंधक/Regional Head's signature/क्षेत्रीय प्रमुख के हस्ताक्षर _____

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

	Sole/First Accountholder/ एकल/प्रथम खाताधारक	Remarks/ टिप्पणी
• PAN copy/ Form 60/ पैन की प्रति/फॉर्म 60	<input type="checkbox"/>	_____
• PAN website validation/ पैन वेबसाइट से पुष्टि	<input type="checkbox"/>	_____
• Passport/Driving license copy/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• Aadhar card copy/ आधार कार्ड की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• AOC copy/ एओसी की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• Mortgage LTS screenshot/ बंधक एलटीएस का स्क्रीनशॉट	<input type="checkbox"/>	_____
• Proof of Global Premier/ वैश्विक प्रिमियर का प्रमाण	<input type="checkbox"/>	_____
• Nomination form/ नामांकन फॉर्म	<input type="checkbox"/>	_____
• Passport size photo for each account holder signed on the front/ प्रत्येक खाताधारक की पासपोर्ट आकार की फोटो और उस पर हस्ताक्षर	<input type="checkbox"/>	_____
• Proof of Identity/ पहचान का प्रमाण	<input type="checkbox"/>	_____
• Proof of Address/ पते का प्रमाण	<input type="checkbox"/>	_____
• Additional KYC documents (Subject to verifications and senior executive approvals)/ केवाईसी के अतिरिक्त दस्तावेज (सत्यापन और वरिष्ठ कार्यपालक के अनुमोदन के अधीन)	<input type="checkbox"/>	_____
• RVTV & Senior Executive Approval/ आरवीटीपी और वरिष्ठ कार्यपालक का अनुमोदन	<input type="checkbox"/>	_____
• SCC KYC profile/ एससीसी केवाईसी रूपरेखा	<input type="checkbox"/>	_____
• FCCRM KYC profile/ एफसीसीआरएम केवाईसी रूपरेखा	<input type="checkbox"/>	_____
• ECC/MRC KYC profile/ ईसीसी/एमआरसी केवाईसी रूपरेखा	<input type="checkbox"/>	_____
• Blacklisting Check/ PEP check/ World check/ Sanctions check कालीसूची की जांच/पीईपी जांच/वैश्विक जांच/प्रतिबंध की जांच	<input type="checkbox"/>	_____
• POA/ पीओए	<input type="checkbox"/>	_____
• SPL INST/ विशेष संस्था	<input type="checkbox"/>	_____
• IWP acknowledgement copy/ आईडब्ल्यूपी पावती की प्रति	<input type="checkbox"/>	_____
• Signature of account opening bank staff/ खाता खोलने वाले बैंक स्टाफ के हस्ताक्षर	<input type="checkbox"/>	_____
• Bank seal and OSV/ बैंक की मुहर और ओएसवी	<input type="checkbox"/>	_____
• PI and PA variation/ पीआई और पीए विचरण	<input type="checkbox"/>	_____
• INM approval/ आईएनएम अनुमोदन	<input type="checkbox"/>	_____
• C31 provided/ सी31 प्रदत्त	<input type="checkbox"/>	_____

BM Name/ बीएम का नाम _____

BM Employee number/ बीएम कर्मचारी का नाम _____

BM Signature/ बीएम के हस्ताक्षर

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Conversion of Non-Resident account to Resident Account/ अनिवासी खाते को निवासी खाते में बदलना

Date/ तारीख: _____

To/ प्रति

The Branch Manager/ शाखा प्रबंधक

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India/ हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत

Sub/ विषय: Conversion of Non-Resident account to Resident Account held with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India ('Bank') Owing to the change of my current residential status I would like to re-designate the following Non-Resident account(s) to Resident account with immediate effect./ हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (बैंक) के पास रखे गये अनिवासी खाते को निवासी खाते में बदलना. मेरी मौजूदा आवासीय स्थिति में परिवर्तन के कारण मैं निम्नलिखित अनिवासी खाते को तत्काल प्रभाव से निवासी खाते में पुनर्निर्धारण करवाना चाहूंगा:

Account No/ खाता संख्या. _____

I enclose the documents as under/ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ – (in addition to the request form)/ (अनुरोध फॉर्म के अलावा)

- Completed Resident Account Opening form/ पूर्ण निवासी खाता खोलने का फॉर्म
- Passport size photograph/ पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
- Any one document to evidence Proof of Identity (List A) and Proof of Address (List – B) from sole and all joint accountholders/ एकल और संयुक्त खाताधारकों की पहचान के प्रमाण (सूची ए) और पते के प्रमाण (सूची बी) के लिए कोई एक दस्तावेज
- PAN/ पैन/ Form -60/ फॉर्म -60

List A/ सूची ए	List B/ सूची बी
Passport/ पासपोर्ट	Passport/ पासपोर्ट
Election/Voter's id/ मतदान/मतदाता पहचान पत्र	Election/Voter's id/ मतदान/मतदाता पहचान पत्र
Permanent driving license/ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस	Permanent driving license/ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
Government employee ID Card/ सरकारी कर्मचारी का आईडी	Ration Card/ राशन कार्ड
Defence ID Card/ रक्षा आईडी कार्ड	Society Outgoing bill (Only from registered societies)/ सोसायटी खर्च का बिल (केवल पंजीकृत सोसायटी से)
	Electricity/water/telephone bill/ बिजली/पानी/टेलीफोन बिल
	Property tax bill/ संपत्ति कर बिल
	Domicile certificate with address issued by Municipal Corporation/ नगरपालिका निगम द्वारा जारी पते के साथ निवासी प्रमाणपत्र

Ration Card is not accepted as a proof of residential/ permanent address in the state of Gujarat and Maharashtra or in those states where the ration card specifically states that it has been issued only for 'ration purposes'./ गुजरात और महाराष्ट्र तथा अन्य ऐसे राज्यों में राशन कार्ड को आवासीय/स्थायी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, जहां पर राशन कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा गया हो कि यह 'केवल राशन के उद्देश्य के लिए' जारी किया गया है.

I also have read and understood the conditions mentioned overleaf./ मैंने इसके पीछे लिखी शर्तों को भी पढ़ और समझ लिया है.

Thanking you,/ धन्यवाद

(Signature of all accountholders required/ (सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं)

Conditions/ शर्तें :-

- Please note that your account number will not change with the re-designation of your existing savings account/ कृपया नोट करें कि आपके मौजूदा बचत खाते के पुनर्निर्धारण पर आपका खाता संख्या नहीं बदलेगा.
- Post re-designation the existing standing instructions/ECS/auto debit instruction given on the account will continue to be honored./ पुनर्निर्धारण के बाद खाते में दिये गये मौजूदा स्थायी अनुदेश/ईसीएस/स्वतः नामे अनुदेशों का पालन होता रहेगा.
- A separate instructions for change in residency status for demat/loan/wealth management accounts (IF ANY) to be provided to HSBC India. Power of Attorney (if any) existing on the Non-Resident External (NRE) account will be discontinued./ डिमैट/ऋण/धनसंपदा प्रबंध खाते (यदि कोई हो) के लिए निवासी स्थिति में परिवर्तन के लिए एवएसबीसी भारत को अलग से अनुदेश दिये जायें. मौजूदा अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाते में मुख्तारनामा (यदि कोई हो) को बंद कर दिया जायेगा.
- The existing cheque series and debit card on the Non-resident account will not be operational and a welcome pack consisting of the debit card cheque book will be sent to your correspondence address as mentioned on the account opening form/ अनिवासी खाते में मौजूदा चेक श्रृंखला और डेबिट कार्ड का परिचालन नहीं होगा और खाता खोलने के फॉर्म में वर्णित आपके पत्रव्यवहार के पते पर डेबिट कार्ड, चेक बुक सहित स्वागत पैक भेजा जायेगा.

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Following are the Deliverables/ निम्नलिखित चीजों की सुपुर्दगी की जाती है :-

- Personalized Cheque book/ वैयक्तिक चेक बुक
- Debit Card/ डेबिट कार्ड
- The Banking Codes and Standards Board of India Brochure./ भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड का ब्रोशर.
- Cheques issued prior to redesignation of the account but presented to HSBC India post conversion shall not honored. You are requested to make alternate arrangement on the same prior to submitting the request for re-designation of account. The accountholder(s) indemnifies HSBC India against any actions proceedings, claims and/or demands that may arise due to such dishonor./ खाते के पुनर्निर्धारण से पहले जारी लेकिन परिवर्तन के बाद एचएसबीसी भारत में प्रस्तुत चेकों का भुगतान नहीं किया जायेगा. अतः खाते के पुनर्निर्धारण का अनुरोध प्रस्तुत

Conversion of Resident account to Non-Resident/ निवासी खाते का अनिवासी खाते में परिवर्तन

Date/ तारीख: _____

To/ प्रति

The Branch Manager/ शाखा प्रबंधक

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India/ हांगकांग एंड संगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत

Sub/ विषय: Conversion of Resident Account to Non-Resident/ Conversion of Resident Account to Non-Resident Owing to the change of my current residential status I would like to re-designate the following Resident Account(s) held with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India ("Bank")/ निवासी खाते का अनिवासी खाते में परिवर्तन, मेरी आवासीय स्थिति में परिवर्तन के कारण मैं हांगकांग एंड संगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत (बैंक) के पास रखे गये निम्नलिखित निवासी खाते का पुनर्निर्धारण करवाना चाहूंगा:

Account Nos/ खाता संख्या. _____

I enclose the documents as under/ मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ – (in addition to the request form)/ (अनुरोध फॉर्म के अलावा)

- ✓ Completed Account Opening Form/ पूर्ण निवासी खाता खोलने का फॉर्म
- ✓ Fresh KYC documents for Non – Resident conversion as per the NRI Account Opening form/ निवासी भारतीय खाता खोलने के फॉर्म के अनुसार अनिवासी परिवर्तन के लिए नये केवाईसी दस्तावेज –
 - Passport size photograph for each applicant signed by the applicant on the front/ प्रत्येक आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, आवेदक द्वारा उस पर हस्ताक्षर
 - Attested photocopies of the passport of each applicant of pages showing passport details, work permit/visa details as well as the page indicating the last date of arrival in India/ प्रत्येक आवेदक के पासपोर्ट के उन पृष्ठों की सत्यापित फोटोकॉपी, जिनमें पासपोर्ट का ब्योरा, कार्य अनुमति वीजा का ब्योरा और भारत में आगमन की अंतिम तारीख का वर्णन हो.
 - Separate proof of Non-Resident status if overseas Residence Visa/Permit or Work Permit is not included in the passport./ यदि पासपोर्ट में विदेशी आवास वीजा/अनुमति या कार्य अनुमति शामिल न हो तो अनिवासी स्थिति का अलग प्रमाण
 - Proof of Indian Origin, if any, (e.g. PIO Card) in case of foreign passport holders./ विदेशी पासपोर्ट धारकों के मामले में भारतीय मूल का प्रमाण, यदि कोई हो (जैसे पीआईओ कार्ड)
 - In case of minors, please attach a photocopy of guardian's passport and guardian's photograph signed on the front/ अयवस्कों के मामले में कृपया अभिभावक के पासपोर्ट की फोटोकॉपी और हस्ताक्षर के साथ अभिभावक की फोटो
 - Proof of address for each applicant/ प्रत्येक आवेदक के पते का प्रमाण
 - For employees of foreign shipping company/merchant navy, the following documents are required in addition to proof of residential address/ विदेशी जहाज कंपनी/मर्चेंट नौवी के कर्मचारियों के लिए आवासीय पते के प्रमाण के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
 - For permanent employees/ स्थायी कर्मचारियों के लिए – initial work contract and last wage slip/ प्रारंभिक कार्य संविदा और अंतिम वेतन पर्ची
 - For contract employees/ संविदा कर्मचारियों के लिए – current work contract with a letter from local agent confirming next date of joining vessel// वर्तमान कार्य संविदा और वेसल में कार्यग्रहण की आगामी तारीख की पुष्टि करते हुए स्थानीय एजेंट से एक पत्र

I also have read and understood the conditions mentioned overleaf./ मैंने इसके पीछे लिखी शर्तों को भी पढ़ और समझ लिया है.

Thanking you,/ धन्यवाद

(Signature of all accountholders required/ (सभी खाताधारकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं))

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)

Conditions/ शर्तें :-

- Please note that your account number will not change with the re-designation of your existing savings account/ कृपया नोट करें कि आपके मौजूदा बचत खाते के पुनर्निर्धारण पर आपका खाता संख्या नहीं बदलेगा.
- Post re-designation the existing standing instructions/ECS/auto debit instruction given on the account will continue to be honored./ पुनर्निर्धारण के बाद खाते में दिये गये मौजूदा स्थायी अनुदेश/ईसीएस/स्वतः नामे अनुदेशों का पालन होता रहेगा.
- A separate instructions for change in residency status for demat/loan/wealth management accounts (IF ANY) to be provided to HSBC India./ डिमैट/ऋण/धनसंपदा प्रबंध खाते (यदि कोई हो) के लिए निवासी स्थिति में परिवर्तन के लिए एचएसबीसी भारत को अलग से अनुदेश दिये जायें.
- The existing cheque series and debit card on the Resident account will not be operational and a welcome pack consisting of the debit card cheque book will be sent to your correspondence address as mentioned on the account opening form./ निवासी खाते में मौजूदा चेक श्रृंखला और डेबिट कार्ड का परिचालन नहीं होगा और खाता खोलने के फॉर्म में वर्णित आपके पत्रव्यवहार के नते पर डेबिट कार्ड, चेक बुक सहित स्वागत पैक भेजा जायेगा.

Following are the Deliverables/ निम्नलिखित चीजों की सुपुर्दगी की जाती है :-

- Personalized Cheque book/ वैयक्तिक चेक बुक
- Debit Card/ डेबिट कार्ड
- The Banking Codes and Standards Board of India Brochure./ भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड का ब्रोशर.
- Cheques issued prior to re-designation of the account but presented to HSBC India post re-designation shall not get honored. You are requested to make alternate arrangement on the same prior to submitting the request for re-designation of account. The accountholder(s) indemnifies HSBC India against any actions proceedings, claims and/or demands that may arise due to such dishonor./ खाते के पुनर्निर्धारण से पूर्व जारी लेकिन पुनर्निर्धारण के बाद एचएसबीसी भारत के पास प्रस्तुत चेकों का भुगतान नहीं किया जायेगा. अतः खाते के पुनर्निर्धारण का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले आप द्वारा वैयक्तिक व्यवस्था करने का अनुरोध है. ऐसे अनादरण के कारण की जाने वाली किसी कार्यवाही, दावे और/या मांग के लिए खाताधारक (कों) को एचएसबीसी भारत को क्षतिपूर्ति करनी होगी

Please initial below/ कृपया नीचे आद्यक्षर करें

(NAME OF SOLE/FIRST ACCOUNT HOLDER)/ (एकल/प्रथम खाताधारक का नाम)